



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2016 (चैत्र 13, 1938)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2016 (CHAITRA 13, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2016

संख्या 11-प्रेज/2016, दिनांक 26 जनवरी 2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए 'कीर्ति चक्र' प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. श्री गौतम कोच, असम सशस्त्र शाखा कांस्टेबल (मरणोपरांत)

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 23 जून 2014}

अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) दीफू और पीआरसी के साथ धनसीरी सीमा चौकी के प्रभारी तथा 23वीं असम पुलिस (भारतीय रिजर्व) बटालियन की ½ टुकड़ी ने 23.06.2014 की मध्यरात्रि को लगभग 0030 बजे यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (यूपीएलए) के कुछ उग्रवादियों की गतिविधि के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर दीफू पुलिस स्टेशन की धनसीरी सीमा चौकी के अंतर्गत रामसिंग हंसे गांव में कार्यवाही प्रारंभ की। इस कार्यवाही के दौरान यह टीम रामसिंग हंसे गांव की सुश्री काजिर हंसेपी और सुश्री कारेंगसो हंसेपी के घर पर पहुंची जहां पर सशस्त्र यूनाइटेड पीपुल्स आर्मी के कुछ उग्रवादी छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। परन्तु सशस्त्र उग्रवादियों ने उस घर से बाहर निकलकर सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध

गोलीबारी आरंभ कर दी। श्री गौतम कोच ने अपने पूर्ण साहस तथा सूझबूझ से तत्काल गोलीबारी करके प्रतिकार किया तथा अन्य पुलिस अधिकारी एवं कार्मिक, जो कार्यवाही में शामिल थे, ने भी गोलीबारी की। इसके परिणामस्वरूप यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक उग्रवादी घटनास्थल पर मारा गया और दूसरा वहां से भाग निकला। श्री गौतम कोच ने इस मुठभेड़ के दौरान यूपीएल उग्रवादियों का सामने से मुकाबला किया, इससे उनके सिर में गोली लगी और अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई। मृतक यूपीएल उग्रवादी की पहचान यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडरिटी के पूर्व उग्रवादी नामतः राजीब इंगलेंग @ सोनजीब इंगलेंग के रूप में की गई। घटनास्थल की तलाशी लेने के दौरान मैगजीन के साथ एक एके-56 राइफल, 7.62 मि.मी. गोलाबारूद के 27 जिंदा कारतूस, 7.62 मि.मी. गोलाबारूद के तीन खाली डिब्बे, 9 मि.मी. गोलाबारूद के सात खाली डिब्बे, 9 मि.मी. गोलाबारूद के चार जिंदा कारतूस, यूपीएल के चार मांग पत्र, एक खाली पैड, यूपीडीएस द्वारा राजीब इंगलेंग के नाम पर जारी किया गया एक पहचान पत्र तथा कार्रेंग हेंसेपी के नाम का एक मतदाता पहचान पत्र बरामद हुआ था।

कांस्टेबल गौतम कोच ने उग्रवादियों का मुकाबला करने में अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प तथा असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया।

2. श्री राजेश अत्रा, हेड कांस्टेबल विशेष कार्य बल, दुर्ग, छत्तीसगढ़

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 11 अप्रैल, 2015}

10 अप्रैल, 2015 को शंकर राव, प्लाटून कमांडर को पुलिस स्टेशन पोलमपल्ली जिला सुकमा में अस्थायी शिविर के दौरान पिदमेल गांव के निकट 25 हथियारबंद सीपीआई (माओवादी) उग्रवादियों के मौजूद होने की आसूचना प्राप्त हुई। श्री शंकर राव ने अपनी 49 कार्मिकों की टीम (01पीसी, 22 सी टी, 23 सहायक सी टी) को तत्काल ब्रीफ किया एवं अतिरिक्त गोलाबारूद लेकर आक्रामक कार्रवाई की योजना तैयार की। योजनानुसार श्री शंकर राव ने पिदमेल के लिए कच्चे ग्रामीण मार्ग द्वारा 11 अप्रैल, 2015 को लगभग 02.00 बजे इस कार्रवाई के लिए अपनी टीम के साथ प्रस्थान किया।

तलाशी अभियान के दौरान विशेष कार्यबल को पिदमेल गांव के निकट माओवादी होने का पता नहीं चला। यह टीम गांव से निकल पड़ी तथा सुबह के समय विराम करने के लिए पिदमेल के निकट एक छोटी पहाड़ी पर रुकने का निर्णय लिया। इसी बीच वे माओवादी जो पिदमेल और दब्बाकोटा के बीच शिविर में थे, उनको पुलिस की गतिविधि के बारे में सूचना मिली और उन्होंने गुप्त रूप से पुलिस दल का पीछा किया एवं छोटी पहाड़ी पर पहुंचते ही विशेष कार्य बल की घेराबंदी प्रारंभ कर दी।

तलाशी के पश्चात सुरक्षा कार्मिक आरवी प्वाइंट 209 के निकट रुक गए। श्री शंकर राव ने कुछ संदिग्ध गतिविधि को देखा तथा अनुकरणीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करते हुए वे अचानक हुई गतिविधि का पता लगाने के लिए उस दिशा की ओर आगे बढ़े। परन्तु छोटी पहाड़ी की घेराबंदी करने वाले माओवादियों ने इस अग्रणी वीर को सीने में गोली मार दी। श्री शंकर राव ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी शेष दल को सतर्क कर दिया। श्री शंकर राव घायल होने के बाद शहीद हो गए।

श्री शंकर राव के घटनास्थल पर ही शहीद होने के पश्चात श्री राजेश अत्रा, हेड कांस्टेबल ने स्वयं ही दल की कमान संभाल ली। इस कार्रवाई ने सुरक्षा कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया और उनको अपने कमांडर के शहीद होने के पश्चात एक दल के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया। श्री अत्रा ने सूझबूझ का परिचय देते हुए माओवादी घेराबंदी को भेदते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस कार्रवाई के लिए उन्होंने स्वयं ही यूबीजीएल से गोलीबारी की एवं इस एरिया हथियार के प्रभाव से माओवादी दल को तितर बितर करने में सफलता मिली। तथापी, आगे कार्रवाई दल दूसरी घेराबंदी में फंस गया। श्री अत्रा और साथियों ने माओवादियों से बहादुरी से मुकाबला किया। माओवादियों ने आगे तीसरी घेराबंदी तैयार की थी। श्री अत्रा ने यूबीजीएल सेल से गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप तीन माओवादी मारे गए और तीसरी घेराबंदी भी बुरी तरह से विफल हो गई। श्री राजेश अत्रा ने अपने दल का नेतृत्व करते हुए न केवल उन्हें सुरक्षित वापस लाए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि सभी घायल पुलिस कार्मिकों को वापस लाया जाए और शहीद अफसर/जवानों के हथियारों को लूटने से बचाया जाए। इस भयंकर गोलीबारी युद्ध के दौरान श्री शंकर राव सहित 07 जवान शहीद हो गए एवं 10 जवानों को गंभीर चोटें लगीं।

हैड कांस्टेबल राजेश अत्रा ने माओवादी उग्रवादियों के साथ घमासान गोलीबारी युद्ध में अनुकरणीय नेतृत्व, रणनीतिक कुशाग्र-बुद्धि तथा असाधारण वीरता का परिचय दिया।

3. जेसी-413444डब्ल्यू सूबेदार महेन्द्र सिंह, सेना मेडल / 9वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल) / 6वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स के साथ संबद्ध

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 02 सितंबर, 2015}

सूबेदार महेन्द्र सिंह अनेक युद्धों के अनुभवी योद्धा थे जिनके प्रेरक नेतृत्व, समुत्थान शक्ति एवं साहस के परिणामस्वरूप बारम्बार उत्कृष्ट सफलताएं अर्जित की गईं। उनको नियंत्रण रेखा पर अनुकरणीय साहस तथा उस कार्रवाई के लिए जिसमें उन्होंने 2013 में एक पाकिस्तान रेगुलर आर्मी को मार गिराया था, सेना मेडल से पुरस्कृत किया गया था।

02 सितंबर, 2015 को 2015 बजे जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हफरूदा जंगल में आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित हुआ जिसके परिणामस्वरूप दो साथियों को छर्छों से चोटें लगी थीं। अनुकरणीय नेतृत्व का परिचय देते हुए सूबेदार महेन्द्र सिंह ने लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी के साथ भारी मात्रा में गोलीबारी करते हुए अपने साथियों को सुरक्षित निकालने के लिए कार्रवाई की। अपने साथियों को खतरे में भांप कर सूबेदार महेन्द्र ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की और अदम्य आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए आक्रमण कर अत्यंत निकट से एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। उनकी निर्भीकता ने दूसरे आतंकवादी को अचंभित कर दिया और उसने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। वह निडर होकर आतंकवादियों के पास आए, उसी समय एक आतंकवादी ने दौड़कर गोलीबारी की एवं सूबेदार महेन्द्र को पेट में गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपनी चोट, जिसने उनके कमर के निचले भाग को पंगु बना दिया, की परवाह न करते हुए उन्होंने अत्यंत निकट से आतंकवादी को मार गिराया। आतंकवादी की गोलीबारी से होने वाले संभावित खतरे की तथा अपने गंभीर जख्म की चिंता न करते हुए उन्होंने किसी और को हताहत होने से बचाने के लिए स्वयं को सुरक्षित निकालने के लिए सभी प्रयासों को मना कर दिया तथा स्वयं को मुक्त करने के लिए अत्यंत पीड़ा सहन की।

सूबेदार महेन्द्र सिंह ने आतंकवादियों से मुकाबला करते समय अनुकरणीय नेतृत्व और असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया।

4. 3986807एच सिपाही जगदीश चंद, 546 रक्षा सुरक्षा कोर प्लाटून (मरणोपरान्त)

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 02 जनवरी 2016}

सिपाही जगदीश चंद 18 विंग वायु सेना के साथ सम्बद्ध 546 रक्षा सुरक्षा कोर प्लाटून में तैनात थे। 01/02 जनवरी, 2016 की रात में 0330 बजे जब यह कार्मिक रक्षा सुरक्षा कोर लाइन में प्रामाणिक सैन्य ड्यूटी पर कार्यरत था, उसी समय पांच से छह अत्यंत हथियारबंद आतंकवादियों ने लाइन में प्रवेश किया और उस स्थान पर कार्यरत सैन्य टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी प्रारंभ कर दी। इस भारी गोलीबारी में उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। सिपाही जगदीश चंद ने सूझबूझ तथा असाधारण वीरता का परिचय देकर अपनी स्वयं की सुरक्षा की परवाह न करते हुए आतंकवादी के पीछे भागे, उसका पीछा किया तथा उस पर काबू पाया। सिपाही जगदीश चंद ने आतंकवादी का हथियार छीन कर उसे गोली से मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान सामीप्य में दो और आतंकवादियों ने सिपाही जगदीश चंद पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी जिससे वह घटनास्थल पर ही शहीद हो गए।

सिपाही जगदीश चंद ने आतंकवादियों से लोहा लेने के दौरान उत्तम सूझबूझ, पराक्रम तथा असाधारण वीरता का परिचय दिया एवं सर्वोच्च बलिदान दिया।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 12-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए 'शौर्य चक्र' प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं-

1. 4577583पी सिपाही धर्मा राम, दि महार रेजिमेंट / प्रथम बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 25 मई, 2015}

25 मई, 2015 को सिपाही धर्मा राम जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले के कांजीकुल गांव की ओर मेजर कोबितिरहा सन्याल द्वारा प्रारंभ की गई गश्त का एक हिस्सा थे। 1300 बजे गश्तीदल समीपस्थ घर से अचानक हुयी भयंकर गोलीबारी की चपेट में आ गया। सिपाही धर्मा राम ने अनुकरणीय सूझबूझ का प्रदर्शन करके अपनी टीम को गोलियों की दिशा के बारे में चेतावनी दी और निडरतापूर्वक सीधी गोलीबारी करके आतंकवादी का मुकाबला किया। उन्होंने आतंकवादी की गोली का सामना करने में निस्वार्थ रूप से स्वयं को झोंक दिया और अपने किसी भी टीम के सदस्य को घायल होने से बचाने हेतु वे दृढ़ता से लड़ते रहे।

इस गोलीबारी के दौरान सिपाही को पीठ और जांघ में दो गोलियां लगीं। गंभीर घायलावस्था का ध्यान न देकर और अडिग रहकर और अत्यधिक खून बहने के बावजूद सिपाही ने अनुकरणीय युद्ध क्षेत्र कला का प्रदर्शन किया और रेंगते हुए उचित स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने आतंकवादी पर उचित निशाना लगाकर गोलीबारी की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार आतंकवादी निष्क्रिय हो गया और उसकी पहचान लश्कर-ए-तैयबा जिला कमांडर के रूप में की गई।

सिपाही धर्मा राम ने कर्तव्यपरायणता से ऊपर उठकर साहस, प्रबल विश्वास और शूरवीरता का प्रदर्शन किया और आतंकवादी से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

2. एसएल-05351वाई लेफ्टिनेंट हरजिंदर सिंह/ दि जनरल सर्विस/तीसरी बटालियन दि कुमाऊं रेजिमेंट

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 05 जून, 2015}

05 जून, 2015 को लेफ्टिनेंट हरजिंदर सिंह जम्मू और कश्मीर में हल्का जीरो घात पाइन्ट के कमांडर थे। 2230 बजे तीन आतंकवादियों का एक समूह हल्का जीरो के सामने दिखाई पड़ा। लेफ्टिनेंट हरजिंदर सिंह ने लगातार आतंकवादियों की आवाजाही का पता लगाया और तत्काल स्थिति का जायजा लेते हुए प्रभावी गोलीबारी प्रारंभ कर घुसपैठियों से मुकाबला किया। प्रभावी गोलीबारी ने हल्का वन की ओर ऊंचाई वाले स्थान पर घुसपैठ रोधी बाधा प्रणाली के पास आतंकवादियों को जाने के लिए मजबूर कर दिया। आतंकवादी उनका ध्यान भंग कर बच निकलने के लिए दो समूहों में बंट गए। 0500 बजे अफसर आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। युद्ध अभ्यास का प्रयोग करते हुए उन्होंने बस स्टाप के सामने समूह को देखा। अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सटीक रूप से अनेक ग्रेनेड लांचर दागे और पहले आतंकवादी को निष्क्रिय कर दिया। इसी बीच दूसरे आतंकवादी ने स्वचालित हथियार से गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादी की गोलियों में अडिग रह कर अफसर आतंकवादी के पास पहुंच गया तथा बहुत नजदीक से उसे निष्क्रिय कर दिया। अपने ऊपर गंभीर खतरा होने के बावजूद अफसर ने लगातार आतंकवादियों के ऊपर नजर बनाए रखा और युक्तियुक्त ढंग से उनका सफाया कर दिया।

लेफ्टिनेंट हरजिंदर सिंह ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में प्रतिकूल परिस्थितियों में अदम्य साहस, और कठिन संक्रियात्मक स्थितियों में बहादुरी का प्रदर्शन किया।

3. आईसी-70237पी मेजर प्रफुल कुमार भारद्वाज, 12वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 15 जुलाई, 2015}

मेजर प्रफुल कुमार भारद्वाज ने 13 जुलाई 2015 को रात्रि में निकटतम वर्तमान असम राइफल्स चौकी से 120 कि.मी. नागालैंड के फेक जिले के अवांखू गांव में विशेष आपरेशन प्रारंभ की थी। प्रचंड तथा प्रतिकूल मौसम में घने जंगलो एवं जोखिम भरी चढ़ाईयों को पार करते हुए मेजर प्रफुल का दल 15 जुलाई, 2015 को 2300 बजे अपने लक्ष्य पर पहुंच गया।

2345 बजे एक झोपड़ी के चारों ओर कुछ गतिविधि देखकर मेजर प्रफुल अपने दो साथियों के साथ गतिविधि का पता लगाने के लिए वहां पहुंचे जिससे वे भारी गोलीबारी के बीच फंस गए। किसी कवर की अनुपस्थिति और होने वाली सटीक गोलीबारी से अपने दिल के लिए खतरे को भांप कर मेजर प्रफुल ने झोपड़ी पर गोलीबारी प्रारंभ कर एक आतंकवादी को निकट से मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान उनको उनकी दायीं कोहनी पर गोली लगी जिससे वे घायल हो गए साथ ही उनके हथियार पर भी गोली लगी जिससे वह जाम हो गया। लगातार खून बहने, हथियार के काम न करने तथा उनकी टीम के फँसे होने के बावजूद भी मेजर प्रफुल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिलकुल परवाह न करते हुए घुटनों के बल पर रेंगते हुए झोपड़ी पर दो ग्रेनेड दागे और दूसरे आतंकवादी का सफाया कर दिया।

मेजर प्रफुल कुमार भारद्वाज ने आतंकवादियों का मुकाबला करते समय अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया एवं अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर कार्रवाई किया।

4. कांस्टेबल श्री राँकी (मरणोपरांत), 59 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल (मरणोपरांत)

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 05 अगस्त, 2015}

05 अगस्त, 2015 को लगभग 0420 बजे, श्री एन.के.शर्मा, सहायक कमांडेंट की कमान में कश्मीर सीमा के सीमा सुरक्षा बल के रक्षादल ने 21 वाहनों (हल्के वाहन-02, मध्यम वाहन-03, भारी वाहन-09 तथा बसें-07) के साथ 522 सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों (466 यात्री तथा 56 गाई) को लेकर पारगमन शिविर जम्मू से श्रीनगर के लिए प्रस्थान किया।

इस सड़क पर अनेक मोड़ और घुमाव थे जिनकी वजह से दृश्यता सीमित दूरी तक ही थी। लगभग 0730 बजे जब यह रक्षा दल ऊधमपुर से 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित सिमरौली गांव के निकट नरसूनाला के विकट मोड़ से गुजर रहा था उसी समय स्वचालित हथियार के साथ एक सशस्त्र उग्रवादी 02 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल (चालक) दलजीत सिंह द्वारा चालित सीमा सुरक्षा बल बस पंजीकृत संख्या जे के-01 के - 3851 के सामने अचानक आ पहुंचा। वह बस रक्षा दल में 15वें स्थान पर थी। उस बस में चौवालिस जवान सवार थे। 59 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल राँकी गाई के रूप में उस बस का मार्गरक्षण कर रहे थे।

उग्रवादी ने प्रारंभ में बस के सामने के भाग को निशाना बनाया इसके परिणामस्वरूप बस के बाएं टायर की हवा निकल गई और कांस्टेबल (चालक) दलजीत सिंह को गोली लगी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद भी उन्होंने उत्कृष्ट सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए बस पर नियंत्रण नहीं छोड़ा तथा बस को पहाड़ी भू-भाग से टकराने से बचाव के लिए सुरक्षित अवस्थान पर ले गए। उसके बाद उग्रवादी ने बस में सवार यात्रियों पर भारी मात्रा में गोलीबारी प्रारंभ कर दी तथा खड़ी हुई बस के चारों ओर लगातार घुमते हुए गोलीबारी करने लगा। इसी बीच बायीं ओर ऊंचे स्थान पर मोर्चा लेकर दूसरे उग्रवादी ने भी बस पर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी जिससे बस में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

कांस्टेबल राँकी भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर से अत्यधिक खून बहने लगा। तथापि, उन्होंने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए अपने निजी हथियार से गोलीबारी करके उग्रवादी का प्रभावी रूप से मुकाबला किया। वह लगातार चिल्ला रहे थे और बस में सवार यात्रियों से भी हताहत होने से बचने के लिए सिर झुकाने तथा नीचे रहने के लिए कह रहे थे।

दूसरी बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल शुभेन्दु राय जो यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, वे कांस्टेबल राँकी को उग्रवादी की स्थिति के बारे में सूचना से अवगत कराते रहे। जब उग्रवादी बस के अंदर जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था तो कांस्टेबल शुभेन्दु बस के अगले द्वार की ओर तेजी से दौड़े और मजबूती से द्वार को बंद कर दिया ताकि उग्रवादी बस के अंदर प्रवेश न कर सके। उग्रवादी ने गोलीबारी आरंभ कर दी और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली से गंभीर चोटें लगने के बावजूद भी कांस्टेबल शुभेन्दु राय ने उग्रवादी को बस में प्रवेश नहीं करने दिया। उसके बाद उग्रवादी ने बस के पिछले द्वार से

प्रवेश करने का प्रयास किया। परन्तु कांस्टेबल गोधराज मीणा, 18 बटालियन सीमा सुरक्षा बल जो बस के पिछले भाग में बैठे थे, वह तत्काल पिछले द्वार की ओर दौड़े और वह भारी गोलीबारी के बीच उग्रवादी के प्रवेश को रोकने के लिए मुस्तैदी से खड़े हो गए। उग्रवादी ने उन पर गोलीबारी की परन्तु गोली से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने उग्रवादी को बस के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इस बीच कांस्टेबल राँकी उग्रवादी का लगातार मुकाबला कर रहे थे। जब उग्रवादी बस के अंदर ग्रेनेड दागने की कोशिश कर रहा था तो कांस्टेबल राँकी दरवाजे की ओर दौड़े और प्रभावी गोलीबारी से उस उग्रवादी को मार गिराया।

इस बीच वह उग्रवादी जो पहाड़ी के बायीं ओर ऊंचे भू-भाग पर मोर्चा लिए हुए था, वह घटनास्थल से भागने में सफल रहा। उसने कुछ सिविलियनों को बंधक बना रखा था परन्तु बाद में सिविलियनों ने उस पर काबू कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

कांस्टेबल राँकी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में उग्रवादी से मुकाबला करते समय अनुकरणीय वीरता तथा साहस का प्रदर्शन किया एवं सर्वोच्च बलिदान दिया।

5. श्री विक्रमजीत, प्राइवेट कर्मचारी, कीटनाशक कारखाना यूपीएल, जिला जम्मू, जम्मू और कश्मीर

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 05 अगस्त, 2015}

दिनांक 05.08.2015 को 0700 बजे, सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी, जो जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जा रही थी, पर कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस सूचना के प्राप्त होने के बाद ऊधमपुर के जिला पुलिस के पुलिस दल और राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात अन्य सुरक्षा बल तत्काल उस स्थान पर गए और जवाबी गोलीबारी की। इस भीषण मुठभेड़ के दौरान, एक आतंकवादी को मार गिराया गया जबकि दूसरा आतंकवादी घने जंगल का लाभ उठाकर सुरक्षा बलों से बच निकला। भागते समय उपर्युक्त आतंकवादी ने देश राज और श्री रोमेश कुमार नामक दो व्यक्तियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और उन पुलिस/ सुरक्षा बलों जिन्होंने उस क्षेत्र में सघन तलाशी/ घेराबंदी कार्रवाई शुरू की थी, से अपनी मृत्यु/ गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता प्राप्त करने के अनुसरण में गाइड के रूप में कार्य करने के लिए उनको ले गए। लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद उपर्युक्त आतंकवादी को श्री बिक्रमजीत और श्री राकेश कुमार शर्मा नामक दो और सिविलियन मिले और उसने उसी तरह से उनको भी बंधक बना लिया। पुनः 02 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उपर्युक्त आतंकवादी ने श्री राज कुमार नामक एक और सिविलियन को भी बंधक बना लिया और सभी पांचों सिविलियनों को बन्दूक की नोक पर बंधक बनाकर ले गया। कुछ दूरी तय करने के बाद इन पांचों सिविलियनों में से तीन आतंकवादी को धोखा देकर उसकी पकड़ से बच निकले। परन्तु, श्री विक्रमजीत और श्री राकेश कुमार शर्मा नामक बचे हुए दो बंधकों ने बड़ी सूझबूझ का प्रदर्शन किया जब उन्होंने उस पर काबू पाने के लिए एक अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से उपर्युक्त आतंकवादी को बातचीत में उलझा दिया। उन्होंने आतंकवादी से भिड़कर उस पर काबू करके पहले उपलब्ध अवसर का लाभ उठाया।

श्री विक्रमजीत ने आतंकवादी से तुरंत एके-47 राइफल छीन ली, इस तरह उसे शस्त्र रहित कर दिया जबकि श्री राकेश कुमार शर्मा ने आतंकवादी पर कूद कर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे रस्सी से बांधकर असमर्थ कर दिया। दोनों सिविलियनों ने अपनी जान को अति जोखिम में डालकर बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया। बाद में आतंकवादी को पुलिस दल को सौंप दिया गया जो तत्पश्चात् वहां पहुंची थी। गिरफ्तार आतंकवादी की पहचान मो. नवीद पुत्र मो. याकूब निवासी गुलाम मोहम्मदाबाद, फैसलाबाद पाकिस्तान के रूप में की गई और मृतक आतंकवादी की पहचान मोहम्मद नोमेन उर्फ नोमीन पुत्र एन/के निवासी भावलपुर, पाकिस्तान के रूप में की गई। इन दोनों सिविलियनों द्वारा अदा की गई भूमिका ने गांववालों/सुरक्षा बलों के बहुमूल्य जीवन के नुकसान को बचाया और पुलिस तथा सुरक्षा बलों को उनकी सहानुभूति करने वालों और सहायता करने वालों तक पहुंचने तथा राज्य के अन्य हिस्सों में उनके साथियों को निष्क्रिय करने में भी सहायता की।

इस प्रकार श्री विक्रमजीत ने अत्यंत सूझबूझ और बहादुरी का प्रदर्शन किया और अपने जीवन की परवाह न करते हुए खूंखार आतंकवादी का मुकाबला किया और ग्रामीणों/सुरक्षा बलों के बहुमूल्य जीवन को बचाया।

6. श्री राकेश कुमार शर्मा, जिला उधमपुर, जम्मू और कश्मीर

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 05 अगस्त, 2015}

दिनांक 05.08.2015 को 0700 बजे, सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी, जो जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जा रही थी, पर कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस सूचना के प्राप्त होने के बाद उधमपुर के जिला पुलिस के पुलिस दल और राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात अन्य सुरक्षा बल तत्काल उस स्थान पर गए और जवाबी गोलीबारी की। इस भीषण मुठभेड़ के दौरान, एक आतंकवादी को मार गिराया गया जबकि दूसरा आतंकवादी घने जंगल का लाभ उठाकर सुरक्षा बलों से बच निकला। भागते समय उपर्युक्त आतंकवादी ने देश राज और श्री रोमेश कुमार नामक दो व्यक्तियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और उन पुलिस / सुरक्षा बलों जिन्होंने उस क्षेत्र में सघन तलाशी/ घेराबंदी कार्रवाई शुरू की थी, से अपनी मृत्यु/ गिरफ्तारी से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता प्राप्त करने के अनुसरण में गाड़ के रूप में कार्य करने के लिए उनको ले गए। लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद उपर्युक्त आतंकवादी को श्री विक्रमजीत और श्री राकेश कुमार शर्मा नामक दो और सिविलियन मिले और उसने उसी तरह से उनको भी बंधक बना लिया। पुनः 02 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उपर्युक्त आतंकवादी ने श्री राज कुमार नामक एक और सिविलियन को भी बंधक बना लिया और सभी पांचों सिविलियनों को बन्दूक की नोक पर बंधक बनाकर ले गया। कुछ दूरी तय करने के बाद इन पांचों सिविलियनों में से तीन आतंकवादी को धोखा देकर उसकी पकड़ से बच निकले। परन्तु, श्री विक्रमजीत और श्री राकेश कुमार शर्मा नामक बचे हुए दो बंधकों ने बड़ी सूझबूझ का प्रदर्शन किया जब उन्होंने उसपर काबू पाने के लिए एक अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से उपर्युक्त आतंकवादी को बातचीत में उलझा दिया। उन्होंने आतंकवादी से भिड़कर उस पर काबू करके पहले उपलब्ध अवसर का लाभ उठाया।

श्री विक्रमजीत ने आतंकवादी से तुरंत एके-47 राइफल छीन ली, इस तरह उसे शस्त्र रहित कर दिया जबकि श्री राकेश कुमार शर्मा ने आतंकवादी पर कूद कर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे रस्सी से बांधकर असमर्थ कर दिया। दोनों सिविलियनों ने अपनी जान को अति जोखिम में डालकर बड़ी बहादुरी का प्रदर्शन किया। बाद में आतंकवादी को पुलिस दल को सौंप दिया गया जो तत्पश्चात् वहां पहुंची थी। गिरफ्तार आतंकवादी की पहचान मो. नवीद पुत्र मो. याकूब निवासी गुलाम मोहम्मदाबाद, फैसलाबाद पाकिस्तान के रूप में की गई और मृतक आतंकवादी की पहचान मोहम्मद नोमेन उर्फ नोमीन पुत्र एन/के निवासी भावलपुर, पाकिस्तान के रूप में की गई। इन दोनों सिविलियनों द्वारा अदा की गई भूमिका ने गांववालों/सुरक्षा बलों के बहुमूल्य जीवन के नुकसान को बचाया और पुलिस तथा सुरक्षा बलों को उनकी सहानुभूति करने वालों और सहायता करने वालों तक पहुंचने तथा राज्य के अन्य हिस्सों में उनके साथियों को निष्क्रिय करने में भी सहायता की।

इस प्रकार श्री राकेश कुमार शर्मा ने अत्यंत सूझबूझ और बहादुरी का प्रदर्शन किया तथा अपने जीवन की परवाह न करते हुए खूंखार आतंकवादी का मुकाबला किया और ग्रामीणों/सुरक्षा बलों के बहुमूल्य जीवन को बचाया।

7. 4190712पी नायक खीम सिंह मेहरा / 21वीं बटालियन दि कुमाऊं रेजिमेंट

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 09 अगस्त, 2015}

08 अगस्त, 2015 की रात को जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर जुमागुंड नार के पास लारा क्षेत्र में तीन आतंकवादियों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया। नायक खीम सिंह मेहरा को उनके बच निकलने के रास्ते को रोकने हेतु घात टुकड़ी के एक सदस्य के रूप में तैनात किया गया था।

0530 बजे नायक खीम सिंह द्वारा नियंत्रण रेखा की ओर जुमागुंड नार के पार जंगल में आवाजाही करते हुए आतंकवादी समूह को देखा गया। दृढ़ता, धैर्य और समग्र निर्भीकता का प्रदर्शन करते हुए, नायक खीम सिंह ने तेजी से नाला पार किया, वे सामने के पर्वत-स्कंध पर चढ़ गए तथा नजदीक से आतंकवादियों का मुकाबला किया और एक आतंकवादी को वहीं पर मार गिराया तथा उनको बच निकलने से रोका।

आतंकवादियों तथा नायक खीम सिंह और शेष घात टुकड़ी के बीच भंयकर जवाबी गोलीबारी प्रारंभ हुई। पर्वत खंडों और पेड़ों की आड़ लेते हुए आतंकवादियों ने मुख्य घात टुकड़ी पर आक्रमण करने की चाल चली। अपने साथियों को भंयकर खतरे में महसूस करते हुए नायक खीम सिंह ने अपने जीवन की परवाह न करके अपने कवर को तोड़कर आतंकवादियों पर हमला कर दिया और नजदीक से गोलीबारी करके दूसरे आतंकवादी को मार डाला।

नायक खीम सिंह मेहरा ने असाधारण साहस, गंभीर व्यक्तिगत खतरे का सामना करने में निर्भीकता और दो खूंखार विदेशी आतंकवादियों को मार गिराने में अदम्य युद्धक भावना का प्रदर्शन किया।

8. आईसी-71516एम मेजर संदिप यादव, कवचित कोर / 55वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 10 अगस्त, 2015}

मेजर संदिप जुलाई, 2013 से पुलवामा में संक्रिया कर रहे हैं और आसूचना तैयार करने और संक्रियाओं का संचालन करने की उनकी सूक्ष्मदर्शिता अनुकरणीय है।

10 अगस्त को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के रतनपुर गांव में आतंकवादियों के उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मेजर संदिप ने खेतों के बीच से जाते समय धान के खेत में एक संदेहात्मक गतिविधि देखी। दो आतंकवादियों ने तत्काल उस अफसर पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। मेजर संदिप अपनी जगह पर अडिग रहे और जवाबी कार्रवाई की जिससे आतंकवादी वही फंस गए। भारी गोलीबारी में अडिग रहकर तथा असाधारण सूझ-बूझ का प्रदर्शन करते हुए अफसर ने अपनी टीम को पुनः तैनात किया जिसने आतंकवादियों को बच निकलने से रोक दिया।

11 अगस्त को थका देने वाले अठारह घंटे की जवाबी गोलीबारी के बाद मेजर संदिप ने बिना सुरक्षा के आतंकवादियों के पास खुले क्षेत्र में रेंगते हुए जाने का निर्णय लिया। जिस समय वे ऐसा कर रहे थे, उन पर भारी गोलीबारी की गई। उन्होंने गंभीर खतरे पर ध्यान न देकर और अपने जीवन की परवाह न करके भारी गोलीबारी में अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, रेंगते हुए पास जाकर दोनों आतंकवादियों को मार डाला। इस साहसपूर्ण कार्रवाई से दो लश्कर तंजीम आतंकवादियों की समाप्ति सुनिश्चित हुई और कोई समानांतर नुकसान नहीं हुआ।

मेजर संदिप यादव ने अनुकरणीय नेतृत्व, भारी गोलीबारी का सामना करने में निडरता तथा दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में शूरवीरता का प्रदर्शन किया।

9. आईसी-71155 वाई मेजर अनुराग कुमार / 9वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल) / 32वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स के साथ संबद्ध

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 26 अगस्त 2015}

मेजर अनुराग कुमार 26/27 अगस्त, 2015 को जम्मू और कश्मीर के बारामुल्ला जिले के लिड्डर पंजाल में तलाशी और विध्वंस आपरेशन में 9 पैरा (विशेष बल) टीम, जिसमें एक हेलीकॉप्टर शामिल था, का नेतृत्व कर रहे थे।

शामिल होने के बाद, मेजर अनुराग अपने दस्ते को उस जगह पर ले गए जहां आतंकवादी अंतिम बार देखे गए थे और तलाशी अभियान आयोजित किया। 26 अगस्त, 2015 को 14.00 बजे, अफसर ने चट्टानों के पीछे संदिग्ध गतिविधि देखी और पहले अपने दस्ते को तैनात करने के बाद उन्होंने आतंकवादियों को चुनौती दी जिसके कारण आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अपने साथियों को छटक कर आती हुई गोलियों से गंभीर खतरा महसूस करते हुए अफसर ने अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया और हवलदार विरेन्द्र सिंह और नायक जाविद अहमद चोपान की गोलियों की आड़ में एक आतंकवादी के पास पहुंच कर उसे मार गिराया। मेजर अनुराग कुमार ने तब शेष आतंकवादियों के बच निकलने को रोकने हेतु एक घेरा डाल दिया। 27 अगस्त, 2015 को 11.00 बजे एक आतंकवादी घेरा तोड़ने के प्रयास में अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए बाहर निकला। भारी गोलीबारी

की परवाह न करके और असीम साहस का प्रदर्शन करते हुए मेजर अनुराग ने बहुत नजदीक से मुकाबला करते हुए उस आतंकवादी को मार गिराया। उन्होंने फिर एक फंसे हुए आतंकवादी को बातचीत में उलझा दिया जिससे उसकी गिरफ्तारी में नायक चोपान को सहायता मिली।

मेजर अनुराग कुमार ने आतंकवादियों से मुकाबला करते समय असाधारण युक्तियुक्त कुशाग्र बुद्धि, निस्वार्थता, प्रेरणादायक नेतृत्व और अतुलनीय शूरवीरता का प्रदर्शन किया।

10. आईसी-58160एल कर्नल सन्तोष यशवन्त महाड़िक, सेना मेडल, दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल) / 41वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 17 नवंबर, 2015}

कर्नल सन्तोष यशवन्त महाड़िक, सेना मेडल, दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल) के एक सक्रिय अफसर जुलाई, 2014 से 41 राष्ट्रीय राइफल्स का नेतृत्व कर रहे थे। कर्नल सन्तोष ने अपने प्रेरणादायी नेतृत्व तथा मानवोचित कौशलों से शिक्षा, खेलकूद तथा स्वास्थ्य देखभाल में सफल आपरेशन सद्भावना पहलों के जरिए कुपवाड़ा शहर की गाथा को ही परिवर्तित कर दिया।

कर्नल सन्तोष 17 नवंबर, 2015 को जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सामान्य क्षेत्र मनिगाह वन में आतंकवादियों की उपस्थिति की संभावना के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। लगभग 1215 बजे उन्हें कश्मीरी मनिगाह के निकट वन से घिरे हुए क्षेत्र में आतंकवादियों की संभावित गतिविधि के बारे में सूचना मिली। मोर्चे में सदैव ही नेतृत्व करने वाले कर्नल सन्तोष ने अपने त्वरित कार्रवाही दल के साथ संदिग्ध स्थान पर तत्काल पहुंचने की तैयारी कर दी। जैसे ही दल को तैनात किया जा रहा था उसी समय वे वन में छिपे हुए आतंकवादियों की ओर से होने वाली भारी गोलीबारी में फंस गए। आतंकवादियों की खुली गोलीबारी के बीच उन्होंने आतंकवादियों को मात देने के लिए तत्काल युक्ति सोची तथा उनका लाभप्रद मोर्चे से मुकाबला किया। कर्नल सन्तोष ने आतंकवादियों की भारी गोलीबारी में निडर होकर तथा अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपनी टुकड़ी को सुरक्षा आवरण लेने का अवसर दिया। तथापि गोलीबारी में उन्हें कई गोलियां लगी फिर भी अपने गंभीर जख्मों के प्रति बेपरवाह होकर कर्नल सन्तोष आतंकवादियों का तब तक सामना करते रहे जब तक वह सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच गए। बाद में गंभीर जख्मों के कारण वे शहीद हो गए।

कर्नल सन्तोष यशवन्त महाड़िक ने आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान अनुकरणीय नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा तथा वीरता का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।

11. 15614460 डब्ल्यू नायक सतीश कुमार, बिग्रेड ऑफ दि गाईस / 21वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)

{पुरस्कार की प्रभावी तारीख: 04 दिसंबर, 2015}

नायक सतीश कुमार 07 अप्रैल, 2015 से 21 राष्ट्रीय राइफल्स में सेवारत थे। 04 दिसंबर, 2015 को बोबन वास्टर जंगल में वह तलाशी एवं विध्वंस अभियान के भाग के रूप में एक टीम की कमान संभाल रहे थे। तीव्रता और गोपनीयता दिखाते हुए उन्होंने संभावित लक्षित क्षेत्र तक अपनी छोटी टीम का नेतृत्व किया और सावधानीपूर्वक जंगल की तलाशी ली। 1305 बजे अकस्मात् नायक अनिल पर आतंकवादियों द्वारा गोली चलाई गई जिससे वह घायल हो गए। नायक अनिल को गोली लगी हुई महसूस करके नायक सतीश कुमार गिरे हुए पेड़ की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े और मुकाबला करके नजदीक से एक आतंकवादी को मार गिराया। फिर, उन्होंने नायक अनिल को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की और उन्हें समयपूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सुनिश्चित किया। उसी समय, दूसरे छिपे हुए आतंकवादी ने गोलियां चला दी और उनके दाहिने पैर को घायल कर दिया। अपनी घायलावस्था पर ध्यान न देते हुए नायक सतीश ने इस आतंकवादी का मुकाबला किया और अत्यधिक खून बहने के बावजूद उसके पास गए और उस आतंकवादी, जो अभी भी गोली चला रहा था, पर दो हैंड ग्रेनेड दागे और उसे मार गिराया। तथापि, आतंकवादी पर उनके हमले के दौरान उन्हें दूसरी गोली लगी और वह घायल होकर शहीद हो गए।

नायक सतीश कुमार ने सर्वोच्च बलिदान देने से पहले असाधारण साहस, दो खूंखार आतंकवादियों को मार गिराने में कर्तव्यपरायणता से ऊपर उठकर प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

संख्या 13-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "परम विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-31633पी लेफ्टिनेंट जनरल अरुण कुमार साहनी,
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / तोपखाना रेजिमेंट
2. आईसी-31663एम लेफ्टिनेंट जनरल राकेश नंदन,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल / सेना वायु रक्षा कोर
3. आईसी-34003ए लेफ्टिनेंट जनरल मनमोहन सिंह राय,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंजीनियर्स कोर
4. आईसी-34014एम लेफ्टिनेंट जनरल अमित शर्मा,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / कवचित कोर
5. आईसी-34019एल लेफ्टिनेंट जनरल दीपेन्द्र सिंह हुड्डा,
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार / इंफैंट्री
6. आईसी-34098एल लेफ्टिनेंट जनरल हरमिंदरजीत सिंह सचदेव,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल / इंफैंट्री
7. आईसी-34350वाई लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह,
अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार / कवचित कोर
8. आईसी-34356ए लेफ्टिनेंट जनरल नवकिरण सिंह घई,
अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार / इंफैंट्री
9. आईसी-34385पी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार आहूजा,
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार / तोपखाना रेजिमेंट
10. आईसी-34392एल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह,
उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
11. आईसी-34396एफ लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्रन नारायण नायर,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल / इंफैंट्री
12. आईसी-34402के लेफ्टिनेंट जनरल घनश्याम सिंह कटोच,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
13. आईसी-34454ए लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप सिंह,
अति विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
14. आईसी-34775एक्स लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र वसंतराव थोडगे,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री

15. आईसी-34890एक्स लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन,
अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
16. आईसी-35036एक्स लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कुमार कोहली,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/सिगनल्स कोर
17. आईसी-35040ए लेफ्टिनेंट जनरल राकेश मोहन मित्तल,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/इंजीनियर्स कोर (सेवानिवृत्त)
18. आईसी-35226के लेफ्टिनेंट जनरल कोचरलकोटा गोपाला कृष्णा,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
19. आईसी-37022डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
20. एमआर-04133एन लेफ्टिनेंट जनरल भूषण कुमार चोपड़ा,
अति विशिष्ट सेवा मेडल / सेना चिकित्सा कोर
21. वाइस एडमिरल परासुरामा नायडु मुरुगेसन,
अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (01958-जेड)
22. वाइस एडमिरल सरोज कुमार झा (01866-आर),
अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौ सेना मेडल(सेवानिवृत्त)
23. वाइस एडमिरल अशोक विश्वनाथ सूभेदार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (40735-बी)
24. एयर मार्शल जगजीत सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल (14814) वैमानिक इंजीनियरी इलेक्ट्रॉनिकी (सेवानिवृत्त)
25. एयर मार्शल हेरीकुद्रु बाबू राजाराम, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (14939), प्रशासन/एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (सेवानिवृत्त)
26. एयर मार्शल पोचना प्रसाद रेड्डी, वायु सेना मेडल, एडीसी (15008) उड़ान (पायलट) (सेवानिवृत्त)
27. एयर मार्शल कुलवंत सिंह गिल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, (15220) उड़ान (पायलट) (सेवानिवृत्त)
28. एयर मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, एडीसी (15405) उड़ान (पायलट)
29. एयर मार्शल शिरीष बबन देव, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी (15681) उड़ान (पायलट)

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 14-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थितियों के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "उत्तम युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-35206डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल / इंफैंट्री / मुख्यालय 16 कोर

2. आईसी-35471एम लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री / मुख्यालय 3 कोर
3. आईसी-35479वाई लेफ्टिनेंट जनरल बलवन्त सिंह नेगी, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार / इंफैंट्री / मुख्यालय 14 कोर
4. आईसी-35494एन लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार / इंफैंट्री / मुख्यालय 15 कोर
5. आईसी-35904वाई लेफ्टिनेंट जनरल शरत चन्द, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री / मुख्यालय 4 कोर

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 15-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-35173डब्ल्यू लेफ्टिनेंट जनरल रेमोंड जोसेफ नोरोहा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल / इंफैंट्री
2. आईसी-35650एम लेफ्टिनेंट जनरल बाँबी चेरियन मैथ्युस, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
3. आईसी-35919एफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल / इंफैंट्री
4. एयर मार्शल करात पद्मदास नायर, अति विशिष्ट सेवा मेडल (15195) उड़ान (पायलट) (सेवानिवृत्त)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 16-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "अति विशिष्ट सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-31634एक्स लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्र सिंह पनवर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / सिग्नल्स कोर
2. आईसी-34028एम लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध चक्रवर्ती, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
3. आईसी-34148एल लेफ्टिनेंट जनरल राजेन्द्र प्रसाद राय, विशिष्ट सेवा मेडल / सेना सेवा कोर
4. आईसी-34708एम लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल सिंह बिष्ट, विशिष्ट सेवा मेडल / सिग्नल्स कोर
5. आईसी-34765एन लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल सिंह सिंघा, विशिष्ट सेवा मेडल / इंफैंट्री
6. आईसी-34838पी लेफ्टिनेंट जनरल जॉन जार्ज, विशिष्ट सेवा मेडल / तोपखाना रेजिमेंट
7. आईसी-34901वाई लेफ्टिनेंट जनरल पालेपु रवि शंकर, विशिष्ट सेवा मेडल / तोपखाना रेजिमेंट
8. आईसी-34954एक्स लेफ्टिनेंट जनरल अमित सरीन, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / सेना आयुध कोर
9. आईसी-35109वाई लेफ्टिनेंट जनरल राजीव वसंत कानिटकर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / कवचित कोर
10. आईसी-35115एम लेफ्टिनेंट जनरल जगबीर सिंह, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / मैकेनाइज्ड इंफैंट्री
11. आईसी-35137एल लेफ्टिनेंट जनरल पत्तयारिमल मोहम्मद अली हरीज, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / मैकेनाइज्ड इंफैंट्री

12. आईसी-35602एम लेफ्टिनेंट जनरल अशोक भीम शिवाने, विशिष्ट सेवा मेडल / कवचित कोर
13. आईसी-35796ए लेफ्टिनेंट जनरल कंवल जीत सिँह, विशिष्ट सेवा मेडल / इलेक्ट्रानिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर
14. आईसी-35915एल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव तिवारी / ईफेंट्री
15. आईसी-37247वाई लेफ्टिनेंट जनरल गोविंद सिंह चन्देल, युद्ध सेवा मेडल / ईफेंट्री
16. आईसी-39818एल लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा / इंजीनियर्स कोर
17. वी-00347एम लेफ्टिनेंट जनरल जगविन्दर सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल / रिमाउंट वेटरिनरी कोर
18. आईसी-35480एन मेजर जनरल सुरेन्द्र सिंह, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / ईफेंट्री
19. आईसी-38747एच मेजर जनरल राम किशन सायवाल, विशिष्ट सेवा मेडल / सेना आयुध कोर
20. आईसी-38487एच मेजर जनरल पम्पापति डोडप्पा हल्लुर, विशिष्ट सेवा मेडल / ईफेंट्री
21. आईसी- 39342के मेजर जनरल राजेश सहाय, सेना मेडल / ईफेंट्री
22. आईसी-39522एम मेजर जनरल जयवीर सिंह नेगी, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं बार / ईफेंट्री
23. आईसी- 39656एल मेजर जनरल दिनेश शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल / ईफेंट्री
24. आईसी-40314के मेजर जनरल चन्दी प्रसाद माहान्ती, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / ईफेंट्री
25. आईसी-40353एच मेजर जनरल परमजीत सिंह, सेना मेडल / ईफेंट्री
26. आईसी-40360वाई मेजर जनरल असित भाईलाल मिस्त्री, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल / ईफेंट्री
27. आईसी-40382एक्स मेजर जनरल अरविंद दत्ता, विशिष्ट सेवा मेडल / ईफेंट्री
28. आईसी-40500ए मेजर जनरल योगेश कुमार जोशी, वीर चक्र, सेना मेडल / ईफेंट्री
29. आईसी-40716एफ मेजर जनरल मनोज पाण्डे, विशिष्ट सेवा मेडल / इंजीनियर्स कोर
30. वाइस एडमिरल श्रीकांत (02297-डब्ल्यू)
31. वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल(02540-वाई)
32. वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार, विशिष्ट सेवा मेडल (02483-टी)
33. वाइस एडमिरल अजेन्द्र बहादुर सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल(02619-ए)
34. रियर एडमिरल किशन कुमार पान्डे, विशिष्ट सेवा मेडल(02329-टी)
35. रियर एडमिरल श्री प्रकाश लाल, विशिष्ट सेवा मेडल (40973-डब्ल्यू)
36. रियर एडमिरल राजशेखरा शर्मा शिष्टला, विशिष्ट सेवा मेडल (50832-ए)
37. एयर मार्शल अनिल खोसला, वायु सेना मेडल (15871) उड़ान (पायलट)
38. एयर मार्शल चन्द्रशेखरन हरि कुमार, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल (15881) उड़ान (पायलट)
39. एयर वाइस मार्शल प्रवीण कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल (15970) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
40. एयर वाइस मार्शल अर्चन कुमार भट्टाचार्य, विशिष्ट सेवा मेडल (16322), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
41. एयर वाइस मार्शल जितेन्द्र कुमार सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल (16545), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
42. एयर वाइस मार्शल राजीव सचदेवा (16582) उड़ान (पायलट)

43. एयर वाइस मार्शल शेख महबूब सुभानि (16865) लेखा
44. एयर कमोडोर तेजिन्दर सिंह सरिन, वायु सेना मेडल (17138) उड़ान (पायलट)
45. एयर कमोडोर सुनील पडेगाँवकर, विशिष्ट सेवा मेडल (17279), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
46. एयर कमोडोर कल्लपा होल्लानवर सुरेश, विशिष्ट सेवा मेडल (18124) उड़ान (पायलट)
47. एयर कमोडोर मनीष खन्ना, वायु सेना मेडल (18554) उड़ान (पायलट)
48. एयर कमोडोर सुनिल काशिनाथ विधाते, वायु सेना मेडल (18825) उड़ान (पायलट)
49. एयर कमोडोर हरप्रीत सिंह बसरा, वायु सेना मेडल (19174) उड़ान (पायलट)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 17-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को युद्ध स्थितियों के दौरान उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के लिए "युद्ध सेवा मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-39491एक्स मेजर जनरल अजय कुमार दास, शौर्य चक्र/ ईफेंट्री / मुख्यालय 31 सब एरिया
2. आईसी-40366ए मेजर जनरल आनंद सिंह रावत, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/ईफेंट्री/ विद्रोह रोधी बल (डेल्टा)
3. आईसी-40680एन मेजर जनरल पंडाला नागेश राव, सेना मेडल/ईफेंट्री/मुख्यालय 57 पर्वतीय डिविजन
4. आईसी-40685एम मेजर जनरल राज शुक्ला, सेना मेडल/ तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 19 ईफेंट्री डिविजन
5. आईसी-44573के ब्रिगेडियर सुधीर कुमार झा/ दि असम राइफल्स/मुख्यालय 22वीं सेक्टर असम राइफल्स
6. आईसी-47566वाई ब्रिगेडियर वी एम भुवना कृष्णन/दि डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 102 ईफेंट्री ब्रिगेड
7. आईसी-48389डब्ल्यू ब्रिगेडियर साहि हरजीत सिंह, सेना मेडल/दि राजपूत रेजिमेंट/120 ईफेंट्री ब्रिगेड
8. आईसी-54541पी कर्नल परमवीर सिंह जामवाल, शौर्य चक्र/दि मैकेनाइज्ड ईफेंट्री/9वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
9. आईसी-56645पी कर्नल नवनीत चैल, सेना मेडल/सेना विमानन कोर/204 सेना विमानन स्क्वाड्रन (यूटिलिटी हेलीकॉप्टर)
10. आईसी-57959एच कर्नल राजमीत सिंह/दि महार रेजिमेंट / प्रथम बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
11. आईसी-58166एम कर्नल गगनदीप सिंह/ब्रिगेड ऑफ दि गाडर्स/21वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
12. आईसी-58215के कर्नल रंजित झा / 21वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
13. आईसी-59183वाई कर्नल सुधीर चमोली / 5/5वीं बटालियन दि गोरखा राइफल्स (आगामी बल)
14. आईसी-59265एफ कर्नल बलबीर सिंह / दूसरी बटालियन दि राजपूत रेजिमेंट
15. रियर एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता, विशिष्ट सेवा मेडल (02782-वाई)
16. कैप्टन आलोक आनंदा (04049-ए)
17. इंदर सिंह ओझा, मास्टर चीफ पेटी अफसर II आरसी 1, 161550-के
18. सत्या रंजन मंडल, मास्टर चीफ पेटी अफसर II एएसडब्ल्यूआई (एस)-वाई
19. केसर सिंह चौधरी, पेटी अफसर आरसीआई , 139289-टी

20. विंग कमांडर भूपेन्द्र सिंह सहरावत, वायु सेना मेडल (24203) उड़ान (पायलट)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 18-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए “विशिष्ट सेवा मेडल का बार” प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-38183एल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमुख सिंह सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल/इलेक्ट्रानिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स
2. आईसी-39868डब्ल्यू मेजर जनरल सुनील श्रीवास्तव, विशिष्ट सेवा मेडल/तोपखाना रेजिमेंट
3. आईसी-39865एच मेजर जनरल माइकेल मैथ्यूज, विशिष्ट सेवा मेडल/इंजीनियर्स कोर
4. आईसी-39076डब्ल्यू मेजर जनरल प्रवीन दिक्षित, विशिष्ट सेवा मेडल/कवचित कोर
5. एमआर-03989एम मेजर जनरल दीपक कालरा, विशिष्ट सेवा मेडल/सेना चिकित्सा कोर
6. कैप्टन (टीएस) रवि भूषण श्रीवास्तव (02900-आर), विशिष्ट सेवा मेडल

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 19-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए “विशिष्ट सेवा मेडल” प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-351118ए लेफ्टिनेंट जनरल सतीश प्रभाकर नवाथे / इंजीनियर्स कोर
2. आईसी-37316के लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप सिंह मेहता / कवचित कोर
3. आईसी-37398एक्स लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन / इंफैंट्री
4. डीआर-10358एम लेफ्टिनेंट जनरल तापस कुमार वन्दवोपाध्याय / सेना दन्त चिकित्सा कोर
5. आईसी-35499एम मेजर जनरल मदिनेनी रमेश बाबू, सेना मेडल एवं बार / इंफैंट्री
6. आईसी-35563वाई मेजर जनरल भुपेश कुमार जैन / इंफैंट्री
7. आईसी-35908पी मेजर जनरल अजय आनंद, सेना मेडल / इंजीनियर्स कोर
8. आईसी-38097ए मेजर जनरल अजय कुमार पंत / कवचित कोर
9. आईसी-38408एच मेजर जनरल विवेक सेहगल / इंफैंट्री
10. आईसी-38686डब्ल्यू मेजर जनरल विनोद कुमार / सेना वायु रक्षा कोर
11. आईसी-38696ए मेजर जनरल नरिन्द्र पाल सिंह / कवचित कोर
12. आईसी-38752एन मेजर जनरल फूल कँवर सिवाच / दि मैकेनाइज्ड इंफैंट्री
13. आईसी-38928एन मेजर जनरल अनिल प्रल्हाद बाम, सेना मेडल / तोपखाना रेजिमेंट
14. आईसी-39101के मेजर जनरल मनोज अरुण ओक / इंफैंट्री

15. आईसी-39135एक्स मेजर जनरल राहुल भारद्वाज / इंफैंट्री
16. आईसी-39371वाई मेजर जनरल कृष्णा ईश्वरन/इलैक्ट्रानिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर
17. आईसी-39380ए मेजर जनरल पोदाली शंकर राजेश्वर / तोपखाना रेजिमेंट
18. आईसी-39445एच मेजर जनरल सुदर्शन श्रीकान्त हसबनीस / इंजीनियर्स कोर
19. आईसी-39500एन मेजर जनरल क्रिस्टोफर इमेनुअल फर्नांडिस, सेना मेडल / इंफैंट्री
20. आईसी-39598एम मेजर जनरल गोपालाकृष्णन जयशंकर / इंफैंट्री
21. आईसी-39643एन मेजर जनरल राजीव एडवर्डस / कवचित कोर
22. आईसी-39655एच मेजर जनरल हेमन्त जोनेजा / इंफैंट्री
23. आईसी-39675 डब्ल्यू मेजर जनरल विजय सिंह, सेना मेडल / इंफैंट्री
24. आईसी-39846एक्स मेजर जनरल आशीष रंजन प्रसाद / सिग्नल कोर
25. आईसी-39874के मेजर जनरल तरनजीत सिंह / कवचित कोर
26. आईसी-39909पी मेजर जनरल पी एस संधू / मैकेनाइज्ड इंफैंट्री
27. आईसी-39940एफ मेजर जनरल जगतवीर सिंह / कवचित कोर
28. आईसी-40295के मेजर जनरल अरुण कुमार सप्रा / इंजीनियर्स कोर
29. आईसी-40873एन मेजर जनरल रामचन्द्र नागराज / सिग्नल कोर
30. आईसी-42273के मेजर जनरल बसन्त कुमार रेप्सवाल / सेना सेवा कोर
31. वी-00358वाई मेजर जनरल प्रताप सिंह नरवाल / रिमाउंट वेटेरिनरी कोर
32. एमआर-05622एल मेजर जनरल राखी सिंह / सेना चिकित्सा कोर
33. एनआर-16382वाई मेजर जनरल सुशीला शाही / सेना नर्सिंग सेवा
34. आईसी-41461वाई ब्रिगेडियर योगेन्द्र डिमरी / इंजीनियर्स कोर
35. आईसी-41471एच ब्रिगेडियर सुरेन्द्र कुमार प्राशर / ब्रिगेड ऑफ दि गार्ड्स
36. आईसी-41495एम ब्रिगेडियर नव के खंडूरी / सेना वायु रक्षा कोर
37. आईसी-41521एच ब्रिगेडियर हर्षा गुप्ता, युद्ध सेवा मेडल / दि सिख लाइट इंफैंट्री
38. आईसी-41858एल ब्रिगेडियर कोदन्डा पुवय्या करियप्पा, सेना मेडल / दि राजपूताना राइफल्स
39. आईसी-42356पी ब्रिगेडियर अजय पाल / तोपखाना रेजिमेंट
40. आईसी-42603एक्स ब्रिगेडियर प्रितपाल सिंह भाटिया / सेना वायु रक्षा कोर
41. आईसी-43307वाई ब्रिगेडियर एन राजकुमार , सेना मेडल / दि बिहार रेजिमेंट
42. आईसी-43877पी ब्रिगेडियर राजेन्द्र दिवान / दि सिख रेजिमेंट
43. आईसी-44808एल ब्रिगेडियर संदीप भार्गवा / तोपखाना रेजिमेंट
44. आईसी-45555एन ब्रिगेडियर मोनिष दत्ता / दि जम्मू और कश्मीर राइफल्स
45. आईसी-45909एल ब्रिगेडियर विजय सिंह रावत / दि कुमाऊं रेजिमेंट
46. आईसी-47121एम ब्रिगेडियर अनमोल सूद / दि राजपूताना राइफल्स

47. आईसी-47261वाई ब्रिगेडियर अमरदीप सिंह औजला / दि राजपूताना राइफल्स
48. आईसी-48046ए ब्रिगेडियर राजेश पुष्कर / कवचित कोर
49. आईसी-48096एल ब्रिगेडियर रणजीत सिंह / दि मद्रास रेजिमेंट
50. आईसी-48118वाई ब्रिगेडियर प्रवीन कुमार ऐरी / दि ग्रेनेडियर्स
51. आईसी-41528एम ब्रिगेडियर हरिन्दर सिंह, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल /दि मराठा लाइट इंफैंट्री
52. एमआर-04899एक्स ब्रिगेडियर राजीव मोहन गुप्ता / सेना चिकित्सा कोर
53. एमआर-04969एल ब्रिगेडियर चरणजीत सिंह अहलूवालिया / सेना चिकित्सा कोर
54. एमआर-06435वाई ब्रिगेडियर वेलामाकनी सत्यनारायना गुरुनाथ / सेना चिकित्सा कोर
55. एमआर-05966के ब्रिगेडियर रश्मि दत्ता / सेना चिकित्सा कोर
56. डीआर-10426पी ब्रिगेडियर विनीत शर्मा / सेना दन्त चिकित्सा कोर
57. आईसी-44693एच कर्नल जसबीर सिंह कँवर / दि असम रेजिमेंट
58. आईसी-46453के कर्नल अजय शर्मा / दि सिख रेजिमेंट
59. आईसी-46474ए कर्नल नवल किशोर ओहरी / जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेन्ट
60. आईसी-46705एल कर्नल उदय कुमार यादव, शौर्य चक्र, सेना मेडल / दि मराठा लाइट इंफैंट्री
61. आईसी-50881ए कर्नल नवीन सिंह, वीर चक्र / दि जम्मू और कश्मीर राइफल्स
62. आईसी-53945एल कर्नल प्रवीन भाल / दि सिख रेजिमेंट
63. आईसी-54027एल कर्नल पंकज कौशल, तोपखाना रेजिमेंट
64. आईसी-55944एफ कर्नल प्रशान्त नायर, सेना मेडल / दि मद्रास रेजिमेंट
65. आईसी-56055डब्ल्यू कर्नल राजेश्वर सिंह बजाड, सेना मेडल एवं बार / दि राजपूत रेजिमेंट
66. आईसी-57360पी कर्नल संजय कन्नौत / दि गोरखा राइफल्स
67. आईसी-57427एच कर्नल विनीत अग्रवाल / इंजीनियर्स कोर
68. आईसी-58224एल कर्नल पृथ्वीराज सिंह रावत / दि गोरखा राइफल्स
69. आईसी-58364एक्स कर्नल विक्रम सुधीर ठाकुर / दि ग्रेनेडियर्स
70. आईसी-58464एच कर्नल सुबीर सौधी / दि गढ़वाल राइफल्स
71. एमआर-06311के कर्नल सुवीर भार्गव / सेना चिकित्सा कोर
72. रियर एडमिरल अमित बोस (50931-ए)
73. कमोडोर हरिन्दर पाल सिंह (40989-एफ)
74. कमोडोर परियारथ सुरेश (02554-बी)
75. कमोडोर राजेश पेंढारकर (03130-एन)
76. कमोडोर ज्योतिन रैना (03556-एफ)
77. कमोडोर राकेश कुमार दहिया (03179-जेड)
78. कमोडोर रवि मल्होत्रा (03056-डब्ल्यू)

79. सर्जन कैप्टन विवेक हंदे (75568-डब्ल्यू)
80. कैप्टन पाण्डा प्रचेत सुरेन्द्रप्रसाद (03804-डब्ल्यू)
81. कैप्टन कोरक डे (51481-ए)
82. कैप्टन (टीएस) दलीप कुमार शर्मा (03209-टी)
83. कमांडर विनोद पाल सिंह रावत (03617-डब्ल्यू)
84. कमांडर संजीव साहनी (04640-डब्ल्यू)
85. सर्जन कमांडर तेलकटवार मोहन रामराव (75746-जेड)
86. हनुमान दुबे, मास्टर चीफ पेटी अफसर । एएसडब्ल्यूआई (हथियार) 149943-एफ
87. एयर कमांडर मोथलमपेट शबरी गिरिशा मेनन (17035) प्रशासन / एयर टैफिक कंट्रोलर
88. एयर कमांडर प्रणय कुमार हृदयेश सिन्हा (17118) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)
89. एयर कमांडर अन्नदा कान्ता मिश्रा (17201) प्रशासन / एयर टैफिक कंट्रोलर
90. एयर कमांडर संजय कुमार (17637) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी) (सेवानिवृत्त)
91. एयर कमांडर शशिकर चौधरी (17645) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
92. एयर कमांडर नरेन्द्र तनेजा (18187) चिकित्सा
93. एयर कमांडर रंजन कुमार चौधरी (18384) चिकित्सा
94. ग्रुप कैप्टन संजय शुक्ला (17379) प्रशासन
95. ग्रुप कैप्टन के. अनंतरामन (17882) प्रशासन
96. ग्रुप कैप्टन सुनील मैदिरत्ता (18893) प्रशासन / फाइटर कन्ट्रोलर
97. ग्रुप कैप्टन अजय कुमार पान (19377) परिभारिकी
98. ग्रुप कैप्टन शिवरमण श्रीकान्त (19479) प्रशासन / एयर टैफिक कंट्रोलर
99. ग्रुप कैप्टन लंका वेंकट साई रमेश (19626) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)
100. ग्रुप कैप्टन संजीव घुराटिया (19648) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)
101. ग्रुप कैप्टन हिलाल अहमद राथेर, वायु सेना मेडल (19863) उड़ान (पायलट)
102. ग्रुप कैप्टन आर रविशंकर (20152) उड़ान (पायलट)
103. ग्रुप कैप्टन विजन कुमार पन्डा (20349) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)
104. ग्रुप कैप्टन सतिन्दर सिंह रेहाल (20862) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)
105. ग्रुप कैप्टन समीर मधुकर कलोडे (20968) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)
106. ग्रुप कैप्टन कृष्णास्वामी प्रेमकुमार, वायु सेना मेडल (21241) उड़ान (पायलट)
107. ग्रुप कैप्टन शैलेश रंजन (21254) उड़ान (पायलट)
108. ग्रुप कैप्टन राजेश जोशी (21502) उड़ान (पायलट)
109. ग्रुप कैप्टन मलूक सिंह (21528) उड़ान (पायलट)
110. ग्रुप कैप्टन अजवीर सिंह मिन्हास (22126) उड़ान (पायलट)

111. ग्रुप कैप्टन वैभव दत्त बडोनी (22738) उड़ान (पायलट)
112. ग्रुप कैप्टन आनन्द सौधी (22916) उड़ान (पायलट)
113. विंग कमांडर अभिजीत प्रकाश देशपांडे (24218) उड़ान (पायलट)
114. विंग कमांडर मुदित माथुर (24573) प्रशासन
115. विंग कमांडर जे एंजल रूबन (24808) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)
116. जीओ-1446 एफ एडीजी बीआर बिनोद बिहारी लाल
117. जीएस-194941 वाई ओईएम मंदीप सिंह

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 20-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कर्मिकों को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

आईसी-66544पी मेजर कृष्ण कान्त बाजपेयी, सेना मेडल/दि राजपूत रेजिमेंट/12वीं बटालियन दि असम राइफल्स

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 21-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कर्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "सेनामेडल/आर्मीमेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. आईसी-59497ए लेफ्टिनेंट कर्नल राधाकृष्णन मुर्ली /आसूचना कोर /4 सी आई एस यू
2. आईसी-61070पी लेफ्टिनेंट कर्नल बिजाँय रविन्द्रन/दि मैकेनाइज्ड ईफैंट्री/31वीं बटालियन दि असम राइफल्स
3. टीए-42875एक्स लेफ्टिनेंट कर्नल करनबीर सिंह नट/160 ईफैंट्री बटालियन टीए (एच एवं एच)
4. आईसी-68705एल मेजर अजय सिंह रौतेला / तीसरी बटालियन दि फर्स्ट गोरखा राइफल्स
5. आईसी-69878पी मेजर संदिप सिंह पठानिया/दि डोगरा रेजिमेंट/40वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
6. आईसी-69995ए मेजर उदय भनोट/दि महार रेजिमेंट/प्रथम बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
7. आईसी-70432एम मेजर वैभव विशेष / 19वीं बटालियन दि डोगरा रेजिमेंट
8. आईसी-70967ए मेजर आकाश अशोक तपाडिया / 26वीं बटालियन दि राजपूत रेजिमेंट
9. आईसी-71185डब्ल्यू मेजर विकेश चौहान/सिग्नल कोर/तीसरी बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
10. एसएस-43870एल मेजर लियेनगोसियम के गंगते /12वीं बटालियन दि असम रेजिमेंट
11. एसएस-44233एफ मेजर एन आनंदाराज / इंजीनियर कोर/27वीं बटालियन दि असम राइफल्स
12. आईसी-72249एच कैप्टन मनित कुमार पंत/12वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
13. आईसी-75410एक्स कैप्टन विक्रान्त पॉल/दि असम रेजिमेंट/42वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
14. आईसी-75611डब्ल्यू कैप्टन राहुल सोलंकी / सिग्नल कोर / 56वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स

15. आईसी-76196एम कैप्टन मनीष बोरा / चौथी बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
16. आईसी-76448एन कैप्टन आशीष चिकारा / 5वीं बटालियन दि राजपूत रेजिमेंट
17. आईसी-77704के कैप्टन दिपेश सिंह मेहरा /9वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल), 21वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स के साथ संबद्ध
18. एसएस-43666एम कैप्टन विनीत फोगाट /ब्रिगेड ऑफ दि गाडर्स/50वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
19. आईसी-79570पी कैप्टन मयंक शुक्ला / ईएमई / दूसरी बटालियन दि डोगरा रेजिमेंट
20. एसएस-45863एन कैप्टन आशुतोष राणा / 11वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
21. एमएस-17463एल कैप्टन अश्विनी कुमार /सेना चिकित्सा कोर / तीसरी बटालियन दि लद्दाख स्काउट्स (मरणोपरांत)
22. एआर-302एम श्री राज कुमार शर्मा, सहायक कमांडेंट/27वीं बटालियन दि असम राइफल्स
23. जेसी-460506डब्ल्यू नायब सूबेदार लाटे संजय मुरलिधर/दि मराठा लाइट ईफैंट्री / 56वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
24. 2994529वाई हवलदार बबली सिंह / 5वीं बटालियन दि राजपूत रेजिमेंट
25. 4188349एल हवलदार दिवान सिंह / तीसरी बटालियन दि कुमाऊं रेजिमेंट
26. 13622866एम हवलदार दीपक थापा छैत्री/चौथी बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
27. 13623694पी हवलदार संतोष जोशफ/चौथी बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
28. 4369767पी लांस हवलदार रहोरोथो कटिरी/दि आसाम रेजिमेंट / 42वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
29. 4572469एन लांस हवलदार धर्मेन्द्र कुमार /15वीं बटालियन दि महार रेजिमेंट
30. 4000012एन नायक सुरेन्दर पाल / दूसरी बटालियन दि डोगरा रेजिमेंट
31. 4084250एच नायक सत्यापाल सिंह रावत /चौथी बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
32. 5756932ए नायक मोहन गुरुंग/9वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल), 21वीं बटालियन, दि राष्ट्रीय राइफल्स के साथ संबद्ध
33. 13626111एम नायक रछपाल सिंह/12 वीं बटालियन दि पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
34. 15203010एल नायक सी एच उमामहेश्वर राव / तोपखाना रेजिमेंट / 32वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
35. 15612737एल नायक श्री चित्रा सैकिया/ब्रिगेड ऑफ दि गाडर्स / 21वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)
36. 4002436एच लांस नायक संजय मनकोटिया 19वीं बटालियन दि डोगरा रेजिमेंट
37. 5048055डब्ल्यू लांस नायक आश कुमार गुरुंग/तीसरी बटालियन दि फर्स्ट गोरखा राइफल्स (मरणोपरांत)
38. 15619062वाई लांस नायक हरमेश सिंह/ब्रिगेड ऑफ दि गाडर्स/21वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
39. 16012692पी लांस नायक नरेश सिंह राजपूत/16वीं बटालियन दि राजपुताना राइफल्स
40. 3204692के सिपाही अंकुल/12वीं बटालियन दि जाट रेजिमेंट
41. 3408197एम सिपाही हरप्रीत सिंह/8वीं बटालियन दि सिख रेजिमेंट (मरणोपरांत)
42. 4201029एक्स सिपाही मेहन्द्र सिंह शावंत/दि कुमाऊं रेजिमेंट/50वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
43. 4378804वाई सिपाही खियांगते लालनुनछुअंगा/दि आसाम रेजिमेंट/35वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स

44. 19002584ए सिपाही जरमल सिंह/8वीं बटालियन दि सिख रेजिमेंट
45. 15175529एच गनर जागेश्वर /तोपखाना रेजिमेंट/29वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)
46. 5852252एक्स राइफलमैन शशिर मल्ल /दि गोरखा राइफल्स/32वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)
47. जी-5011948एम राइफलमैन विजय कुमार/23वीं बटालियन दि असम राइफल्स
48. 15623495एन गार्ड्समैन जगदीश प्रसाद /ब्रिगेड ऑफ दि गार्ड्स / 21वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स (मरणोपरांत)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 22-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कर्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए "नौ सेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :-

1. कमांडर संजय शुक्ला (03503-के), आईएनएस शिक्रा
2. कमांडर अशोक कुमार (83807-डब्ल्यू), सीसीडीटी (एमबीआई)
3. अनिल कुमार, पीओए (एसीएमडी), (122947-ए), आईएनएस शिक्रा
4. थॉगवम प्रकाश सिंह, एनए। (एसीएमडी), (224869-टी), आईएनएस शिक्रा

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 23-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कर्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्य के लिए "वायु सेना मेडल/एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. विंग कमांडर राजीव डोभाल (24022)उड़ान (पायलट)
2. विंग कमांडर निर्मल कुमार बक्शी (24531) उड़ान (पायलट)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 24-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कर्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-44038के ब्रिगेडियर एच धर्मराजन, सेना मेडल/इंजीनियर कोर/हेडक्वार्टर्स 22इंफैंट्री ब्रिगेड
2. आईसी-57146एम कर्नल अनिरुद्ध चौहान, सेना मेडल/20वीं बटालियन दि राजपूताना राइफल्स
3. आईसी-57379एन कर्नल आकाश खजांची, सेना मेडल /दि सिख रेजिमेंट/46वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 25-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "सेना मेडल / आर्मी मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. आईसी-38280एच मेजर जनरल इन्दुपुरु नारायण, विशिष्ट सेवा मेडल/तोपखाना रेजिमेंट
2. आईसी-38528एफ मेजर जनरल कपिल कुमार अग्रवाल, विशिष्ट सेवा मेडल/इलेक्ट्रानिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर
3. आईसी-39609एन मेजर जनरल अजय ओहरी /इंफैंट्री
4. आईसी-41067एन मेजर जनरल जय सिंह नैन / इंफैंट्री
5. आईसी-41456एन मेजर जनरल राकेश कुमार आनन्द, विशिष्ट सेवा मेडल / सिग्नल्स कोर
6. आईसी-45200एच मेजर जनरल राजिन्द्र कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल/जज एडवोकेट जनरल विभाग
7. आईसी-41585एन ब्रिगेडियर कृष्ण कुमार महादेवन अय्यर / सेना वायु रक्षा कोर
8. आईसी-41860एच ब्रिगेडियर शान्तनु दयाल, विशिष्ट सेवा मेडल / दि गढ़वाल राइफल्स
9. आईसी-41480के ब्रिगेडियर विश्वजीत घोष, विशिष्ट सेवा मेडल / इंजीनियर्स कोर
10. आईसी-42400एन ब्रिगेडियर तुमुल वर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल/इलेक्ट्रानिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर
11. आईसी-42404के ब्रिगेडियर जय सिंह / दि ग्रेनेडियर्स
12. आईसी-47603एफ ब्रिगेडियर विरेश प्रताप सिंह कौशिक /दि कुमाऊं रेजिमेंट
13. आईसी-48067डब्ल्यू ब्रिगेडियर राशिम बाली, विशिष्ट सेवा मेडल/ दि सिख लाइट इंफैंट्री
14. आईसी-48502ए ब्रिगेडियर अनिल सिंह / इंजीनियर्स कोर
15. वी-00398ए ब्रिगेडियर अनिल कुमार / रिमाउन्ट वेटेरिनरी कोर
16. आईसी-41977एफ कर्नल धर्मवीर सिंह सुहाग, विशिष्ट सेवा मेडल / 9वीं बटालियन दि गोरखा राइफल्स
17. आईसी-49449एम कर्नल इन्द्रजीत सिंह पंजरथ / सेना वायु रक्षा कोर
18. आईसी-50491एक्स कर्नल विनोद बजिया / दि राजपूत रेजिमेंट
19. आईसी-50563डब्ल्यू कर्नल जितेन्द्र बैनीवाल /दि सिख लाइट इंफैंट्री
20. आईसी-50847ए कर्नल ए श्रीधर / तोपखाना रेजिमेंट
21. आईसी-52881वाई कर्नल अपिन्दर पाल सिंह / सिग्नल्स कोर
22. आईसी-53047एम कर्नल दिग्विजय सिंह / दि सिख रेजिमेंट
23. आईसी-54320एच कर्नल कंवर जितेन्द्र सिंह / सेना सेवा कोर
24. आईसी-54357के कर्नल गौरव जैन / तोपखाना रेजिमेंट
25. आईसी-54397एल कर्नल रघुदीप मिन्हास / इंजीनियर्स कोर
26. आईसी-56631पी कर्नल सोनेंदर सिंह / इंजीनियर्स कोर
27. आईसी-56784वाई कर्नल तेजबीर सिंह / दि पंजाब रेजिमेंट
28. आईसी-57234एच कर्नल विक्रमजीत सिंह विर्क/5वीं बटालियन दि महार रेजिमेंट
29. आईसी-57355के कर्नल अशोक कुमार ठाकुर /दि राजपूताना राइफल्स / 18वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स

30. आईसी-57421एफ कर्नल अजय लोंढे/इंजीनियर्स कोर
31. आईसी-57438पी कर्नल गोविन्दन प्रवीण/14वीं बटालियन दि गढ़वाल राइफल्स
32. आईसी-57860एम कर्नल योगेश कुमार बिष्ट /दि पंजाब रेजिमेंट/22वीं बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
33. आईसी-57973पी कर्नल एसएस कमतनूरकर / असम रेजिमेंट/1 अरुणाचल स्काउट्स
34. आईसी-58099एम कर्नल दलविंदर सिंह अटवाल / इंजीनियर्स कोर
35. आईसी 58180वाई कर्नल गिरीधर धोन्डीराम कोले / दि गढ़वाल राइफल्स / 14 बटालियन दि राष्ट्रीय राइफल्स
36. आईसी-58782 एम कर्नल विजय सुधाकर भावे / 13वीं बटालियन दि पंजाब रेजिमेंट
37. एमआर-07768एक्स ले. कर्नल संजीव कुमार / सेना चिकित्सा कोर

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 26-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "नौसेना मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. रियर एडमिरल चन्द्रशेखर राव (40922-बी)
2. कमोडोर महेश सिंह (03146-जेड)
3. कमोडोर लोगानाथन सुरेश सूरियाराज (50952-जेड)
4. कमोडोर संजय साधू (41288-के)
5. कमोडोर सुप्रोभो के डे (02867-आर)
6. कैप्टन राहुल शंकर (03956-आर)
7. कैप्टन सुमीत कपूर (04244-डब्ल्यू)
8. बंशीधर सैनी, सीपीओ, सीडीआई, 179617-वाई

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 27-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए "वायु सेना मेडल / एयर फोर्स मेडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:-

1. ग्रुप कैप्टन निखिलेश गौतम (21210) उड़ान (पायलट)
2. ग्रुप कैप्टन संदीप खॉ (21581) उड़ान (नेवीगेटर)
3. ग्रुप कैप्टन कवंलजीत सिंह (23175) उड़ान (पायलट)
4. ग्रुप कैप्टन अमरदीप सिंह पन्नु (23178) उड़ान (पायलट)
5. ग्रुप कैप्टन अजय पाल सिंह (23538) उड़ान (पायलट)
6. ग्रुप कैप्टन हषिकेश जगन्नाथ पागे (23566) उड़ान (पायलट)
7. ग्रुप कैप्टन पुनीत विग (23733) उड़ान (पायलट)

8. गुप कैप्टन यश पाल सिंह नेगी (23735) उड़ान (पायलट)
9. गुप कैप्टन कुलदीप सिंह (23747) उड़ान (पायलट)
10. गुप कैप्टन रमन गोयल (23757) उड़ान (पायलट)
11. गुप कैप्टन जयशंकर श्रीराम (23980) उड़ान (पायलट)
12. विंग कमांडर संजय चोपडा (23786) उड़ान (पायलट)
13. विंग कमांडर निखिल श्रीकान्त पुरन्दरे (23792) उड़ान (पायलट)
14. विंग कमांडर सूरज शंकर (24037) उड़ान (पायलट)
15. विंग कमांडर देवम् वत्स (25631) उड़ान (पायलट)
16. विंग कमांडर शिव शंकरम् (26561) उड़ान (पायलट)

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

संख्या 28-प्रेज/2016—राष्ट्रपति, "सेनाध्यक्ष" से "रक्षा मंत्री" द्वारा प्राप्त निम्नलिखित अफसरों/कार्मिकों के नाम "मैसन इन डिसपेचज़" के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं :-

ऑपरेशन मेघदूत

1. आईसी-63434पी मेजर बिनीत कुमार, 28 पंजाब
2. एससी-00820एम लेफ्टिनेंट राजेश कुमार, 20 राजपूताना राइफल्स
3. 3409182 डब्ल्यू सिपाही गुरप्रीत सिंह, 19 सिख

ऑपरेशन रक्षक

1. आईसी-68044डब्ल्यू मेजर कोबी तीर्थ सानयाल महार, 1 राष्ट्रीय राइफल्स
2. एसएस-43354डब्ल्यू मेजर प्रशान्त आर.पिल्लई, 18 जाट
3. आईसी-77050एल कैप्टन अभिशेक रेप्सवाल, 66 इंजीनियर रेजिमेंट
4. 4188588ए नायक राजेन्द्र सिंह, कुमाऊं, 50 राष्ट्रीय राइफल्स
5. 9108495पी नायक जाविद अहमद चोपान, 9 पारा (विशेष बल), 6 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ संबद्ध
6. 5048604एल लांस नायक निर्मल दरलामी, 3/1 गोरखा राइफल्स
7. 16114958के सैपर पेटचीमुथु एस, इंजीनियर्स, 1 राष्ट्रीय राइफल्स
8. 9108782वाई राइफलमैन नसीर अहमद खान, जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री, 56 राष्ट्रीय राइफल्स
9. 15181007एच गनर रवि कुमार पटेल, तोपखाना रेजिमेंट, 56 राष्ट्रीय राइफल्स

ऑपरेशन रिनो

1. आईसी-75865एन कैप्टन प्रदीप शुक्ल, 11 गढ़वाल राइफल्स
2. 2999936एल नायक गोपेंद्र सिंह, 2 राजपूत

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 73, दिनांक 9 मार्च 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं —

श्री अरुण कुमार यादव को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-1, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 31.07.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 6600/- पर ।

श्री कुन्दन सिंह को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 08.01.2016 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4600/- पर ।

श्री खेलाराम मार्लि को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01.10.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4600/- पर ।

श्री थीग्येला श्रीनिवास को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 29.06.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4600/- पर ।

श्री आशीष निझावन को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 13.07.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4600/- पर ।

राजीव रंजन सिन्हा
उपनिदेशक (कार्मिक एए2)

राष्ट्रीय कैडेट कोर/एम एस(डी)

सं. 74, दिनांक 9 मार्च 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व सहयोगी एनसीसी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से राष्ट्रीय कैडेट कोर में मेजर/लेफ्टिनेंट कमांडो/सब लेफ्टिनेंट का अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं:-

एनसीसी नं० रैंक, नाम तथा निदेशालय	अवैतनिक रैंक	अवैतनिक रैंक प्रदान करने की तारीख
एनसीसीजेएन/124098, चीफ आफिसर, ए कामाची एनसीसी निदेशालय, टी एवं एन	सब लेफ्टिनेंट	14.04.2015
एनसीसीएन/24058, लेफ्टिनेंट कमांडो, टी आई जो एनसीसी निदेशालय, के एवं एल	लेफ्टिनेंट कमांडो	03.03.2014
एनसीसी/28038, मेजर, आइ बाबू रतिनाम एनसीसी निदेशालय, टी एन पी एवं ए	मेजर	28.07.2013

डी एम गुप्ता
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (एम एस)

थल सेना शाखा

सं. 75, दिनांक 10 मार्च 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं ।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

सर्ज कमांडोर (व समकक्ष) से सर्ज रियर एडमिरल (व समकक्ष) के पद पर

आर कालरा, एनएम, वीएसएम (एमआर-04564ए) (75281-टी)	-	01-10-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-15 से दी जाती है ।
---	---	---

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-07661एच (एएफ-22480एन)	विंग कमांडर	पी जैन	30 जून 2015
----------------------------	-------------	--------	-------------

सर्ज कमांडर से सर्ज कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-06719एच (75502-डब्ल्यू)	सर्ज कमांडर	जेड ए शमीम	16 अगस्त 2015
एमआर-06223एन (75493-जेड)	सर्ज कमांडर	एस चौधरी	12 दिसंबर 2015
एमआर-06278एक्स (75546-डब्ल्यू)	सर्ज कमांडर	ए के सिन्हा	12 दिसंबर 2015
एमआर-07196एफ (75492-वाई)	सर्ज कमांडर	गीता सिन्हा	12 दिसंबर 2015
एमआर-06593एन (75558वाई)	सर्ज कमांडर	सी एन चौधरी	06 जुलाई 2015
एमआर-07689एच (75565एन)	सर्ज कमांडर	नवनीथ नाथ	23 सितंबर 2015

आर के रान्याल
एयर कमांडर
उपमहानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 76, दिनांक 10 मार्च 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले0 कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

आई सी क्रमांक	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
टीए 42385	एच आर एस राना	टी ए (अविभागीय)	01.05.2014
टीए 42088	विनय हॉन्डा	टी ए (अविभागीय)	26.06.2014
टीए 42097	बी एस नागिआल	टी ए (अविभागीय)	26.06.2014
टीए 42521	के एस जग्गी	टी ए (अविभागीय)	26.06.2014

नवीन कुमार
उप निदेशक
एम एस8ए

थल सेना विभाग

सं. 77, दिनांक 11 मार्च 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार परमैन्द सिंह (सं. 13694758वाइ अब जेसी-405369एच) 20 मई 2015*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)

हवलदार मान सिंह (सं. 13694784ए अब जेसी-405375डब्ल्यू) 01 जून 2015

हवलदार संजय कुमार (सं. 13694866एच अब जेसी-405376वाई) 01 जून 2015

हवलदार वीरेन्द्र सिंह	(सं. 13693590एल अब जेसी-405374एन)	01 जून 2015
हवलदार आनंद कुमार वाजपेयी	(सं. 13693594एफ अब जेसी-405387एल)	01 जुलाई 2015
हवलदार मोहन लाल हरितवाल	(सं. 13694522के अब जेसी-405372एच)	01 जून 2015
हवलदार प्रमोद कुमार	(सं. 13695881के अब जेसी-405337ए)	17 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2015 से दी जाती है)		
हवलदार राजेन्द्र प्रसाद	(सं. 13693776पी अब जेसी-405332एफ)	23 मार्च 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
हवलदार ईश्वर पाल मौर्य	(सं. 13695184के अब जेसी-405380एफ)	01 जून 2015
हवलदार राजेन्द्र सिंह बिष्ट	(सं. 13695919एच अब जेसी-405373एल)	01 जून 2015
हवलदार मगन बिहारी शुक्ला	(सं. 13695197एफ अब जेसी-405408डब्ल्यू)	04 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार प्रीतम सिंह	(सं. 13692553एल अब जेसी-405392डब्ल्यू)	01 जुलाई 2015
हवलदार लक्ष्मण सिंह	(सं. 13693272एफ अब जेसी-405393वाई)	01 जुलाई 2015
हवलदार भास्कर नन्द	(सं. 13693273के अब जेसी-405394एफ)	01 जुलाई 2015
हवलदार दामोर दिलीप कुमार बालू सिंह	(सं. 13696844एच अब जेसी-405421ए)	01 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 मई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार ठाकुर करण सिंह कुशवाहा	(सं. 13696970पी अब जेसी-405420एक्स)	01 जुलाई 2015
हवलदार केशव गोगर्ई	(सं. 13692545एम अब जेसी-405384एक्स)	01 जुलाई 2015
हवलदार हिटलर दास	(सं. 13692586डब्ल्यू अब जेसी-405400के)	10 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार राजेश प्रधान	(सं. 13692649एन अब जेसी-405385ए)	01 जुलाई 2015
हवलदार रोमन बाबू सिंघा	(सं. 13695728एन अब जेसी-405404ए)	01 जुलाई 2015
हवलदार जगदीश कुमार	(सं. 13695776एन अब जेसी-405405एच)	01 जुलाई 2015
हवलदार ब्यास मुनि यादवा	(सं. 13693038एल अब जेसी-405417एक्स)	01 जुलाई 2015
हवलदार यरनि श्रिनिवास राव	(सं. 13693357एक्स अब जेसी-405418ए)	01 जुलाई 2015
हवलदार सुरिन्दर सिंह	(सं. 13694116के अब जेसी-405361डब्ल्यू)	20 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)		
हवलदार दया राम	(सं. 15616337डब्ल्यू अब जेसी-405363एफ)	20 मई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)		
हवलदार शिशपाल	(सं. 13695111एक्स अब जेसी-405389डब्ल्यू)	01 जुलाई 2015
हवलदार सुरिन्दर सिंह	(सं. 13695157ए अब जेसी-405390एल)	01 जुलाई 2015
हवलदार कमन सिंह राणा	(सं. 13695243एल अब जेसी-405391एन)	01 जुलाई 2015
हवलदार रमेश कुमार	(सं. 15611787के अब जेसी-405431के)	01 अगस्त 2015
हवलदार बिरेन्द्र कुमार	(सं. 13696527एफ अब जेसी-405396एम)	01 जुलाई 2015
हवलदार सरववनन के	(सं. 13696807पी अब जेसी-405397पी)	03 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		

हवलदार दलीप सिंह	(सं. 13693461एल अब जेसी-405379एम)	01 जून 2015
हवलदार संजय कुमार	(सं. 13693696एक्स अब जेसी-405406एल)	13 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार रमन दीप	(सं. 13693733ए अब जेसी-405409वाई)	01 जुलाई 2015
हवलदार सिया राम गुर्जर	(सं. 13693777एक्स अब जेसी-405410एन)	02 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार रवीन्द्र नाथ यादव	(सं. 13695491एफ अब जेसी-405366पी)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2015 से दी जाती है)		
हवलदार जाधव शिवाजी कुमार लक्ष्मण	(सं. 13697305वाई अब जेसी-405367एक्स)	01 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2015 से दी जाती है)		
हवलदार आर अलागर राज	(सं. 13697337एफ अब जेसी-405377एफ)	01 जून 2015
हवलदार एम डी अनवर उल हक	(सं. 13695925डब्ल्यू अब जेसी-405402पी)	01 जुलाई 2015
हवलदार चौधरी चन्द्रकिशोर रामजीवन	(सं. 13693525एल अब जेसी-405362वाई)	30 अप्रैल 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)		
हवलदार चन्द्र राम आर्य	(सं. 13692693एक्स अब जेसी-405386एच)	01 जुलाई 2015
हवलदार पबित्रा बुरागोहॉय	(सं. 13692906ए अब जेसी-405414के)	15 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार लोकेश कुमार	(सं. 13693839एम अब जेसी-405388एन)	01 जुलाई 2015
हवलदार अवधेश कुमार सिंह	(सं. 13694414एच अब जेसी-405416पी)	01 जुलाई 2015
हवलदार बली राम	(सं. 13694706एच अब जेसी-405415एम)	01 जुलाई 2015
हवलदार बंकेश नाथ तिवारी	(सं. 13693563एफ अब जेसी-405398एक्स)	13 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जाती है)		
हवलदार कमाना पाल	(सं. 13694007एक्स अब जेसी-405407एन)	13 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार केदार नाथ मिश्रा	(सं. 13694149पी अब जेसी-405419एच)	16 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार संतोष तिवारी	(सं. 13694251एक्स अब जेसी-405395के)	01 जुलाई 2015
हवलदार प्यारे लाल	(सं. 13693211के अब जेसी-405401एम)	01 जुलाई 2015
हवलदार धर्म वीर सिंह	(सं. 13694588ए अब जेसी-405403एक्स)	03 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार अब्दुल खालिक	(सं. 13694000एन अब जेसी-405423एल)	23 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार राजेश जार्ज पी	(सं. 13694470वाई अब जेसी-405424एन)	25 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार पाटिल तातोबा	(सं. 13694486के अब जेसी-405425डब्ल्यू)	25 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		

हवलदार अनिल राणा	(सं. 13693835डब्ल्यू अब जेसी-405427एफ)	01 अगस्त 2015
हवलदार बलबीर सिंह	(सं. 13693886के अब जेसी-405447पी)	01 सितंबर 2015
हवलदार अनवझगन पी	(सं. 13693441एक्स अब जेसी-405432एम)	01 अगस्त 2015
हवलदार राजेश कुमार	(सं. 13693530डब्ल्यू अब जेसी-405430एफ)	01 अगस्त 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में		
हवलदार सुरेन्द्र सिंह	(सं. 13693639डब्ल्यू अब जेसी-405444एफ)	01 सितम्बर 2015
हवलदार अक्षय कुमार सिंह	(सं. 13693646एम अब जेसी-405445के)	01 सितम्बर 2015
हवलदार करम वीर	(सं. 13693700पी अब जेसी-405446एम)	01 सितंबर 2015
हवलदार उमेश कुमार	(सं. 13695398ए अब जेसी-405426वाई)	04 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)		
हवलदार बिशम्बर दयाल	(सं. 13695348पी अब जेसी-405443वाई)	01 सितम्बर 2015
हवलदार गोविन्द सिंह	(सं. 13692909एन अब जेसी-405429एम)	17 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जाती है)		
हवलदार अनिल यादव	(सं. 13694003एफ अब जेसी-405428के)	14 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार कुलदीप सिंह	(सं. 13693320डब्ल्यू अब जेसी-405434एक्स)	24 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार महीपाल	(सं. 13695118एफ अब जेसी-405438एन)	31 अगस्त 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अगस्त 2015 से दी जाती है)		
हवलदार ओमकार	(सं. 13694228के अब जेसी-405436एच)	12 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2015 से दी जाती है)		
हवलदार राजेन्द्र सिंह	(सं. 13694525एक्स अब जेसी-405437एल)	17 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अगस्त 2015 से दी जाती है)		
हवलदार देवेन्द्र सिंह	(सं. 13694635एम अब जेसी-405442डब्ल्यू)	17 सितम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार चन्द्र मोहन	(सं. 13693728पी अब जेसी-405448एक्स)	01 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार नरेन्द्र कुमार	(सं. 13693926एन अब जेसी-405455एन)	01 नवम्बर 2015
हवलदार सुरिन्द्र कुमार	(सं. 13695397एक्स अब जेसी-405439डब्ल्यू)	06 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अगस्त 2015 से दी जाती है)		
हवलदार रंजीत सिंह	(सं. 13695727एल अब जेसी-405440एल)	06 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अगस्त 2015 से दी जाती है)		
हवलदार राजेन्द्र सिंह गुर्जर	(सं. 13695989एफ अब जेसी-405441एन)	06 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अगस्त 2015 से दी जाती है)		
हवलदार साजु कुमार एस	(सं. 13694521एफ अब जेसी-405454एल)	02 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जाती है)		

हवलदार वीरेन्द्र सिंह	(सं. 13695239एच अब जेसी-405449ए)	12 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार कमल किशोर	(सं. 13693535पी अब जेसी-405450पी)	19 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार राज कुमार	(सं. 13693550के अब जेसी-405453एच)	10 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार मोहम्मद सिराज	(सं. 13693625डब्ल्यू अब जेसी-405435ए)	01 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2015 से दी जाती है)		
हवलदार धनंजय कुमार ओझा	(सं. 13694353एन अब जेसी-405451एक्स)	14 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार अनुसुइया प्रसाद	(सं. 13694547डब्ल्यू अब जेसी-405452ए)	20 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार (क्लर्क एस डी) राजीव कुमार	(सं. 13696474एन जेसी-405353एक्स)	01 मई 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) पाटिल दीपक तुकाराम	(सं. 13696754एफ अब जेसी-405378के)	20 जून 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2015 से दी जाती है)		
हवलदार (क्लर्क एस डी) राम चन्द्र	(सं. 13696806एम अब जेसी-405422एच)	01 जुलाई 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) होले किशोर रामचन्द्र	(सं. 13696824पी अब जेसी-405413एफ)	06 जुलाई 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2015 से दी जाती है)		
हवलदार (क्लर्क एस डी) मनोज कुमार	(सं. 13696830एच अब जेसी-405382एम)	01 जुलाई 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) शैख अली अहमद एस	(सं. 13696851वाई अब जेसी-405399ए)	01 जुलाई 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) केदार मिश्रा	(सं. 13696900डब्ल्यू अब जेसी-405383पी)	01 जुलाई 2015
हवलदार (क्लर्क एस डी) संतोष कुमार शुक्ला	(सं. 13695719एम अब जेसी-405433पी)	01 सितंबर 2015
नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में		
हवलदार (एस के टी) सत्यभान सिंह	(सं. 13693265एल अब जेसी-405370एक्स)	01 जून 2015
हवलदार (एस के टी) भगत जीवन भोनाजी	(सं. 13695479ए अब जेसी-405381के)	01 जुलाई 2015

राजीव जौहरी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 78, दिनांक 11 मार्च 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं —

श्रीमती गीता रानी बी एस को निजी सचिव, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित), डी आर डी ओ में 31.12.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4600/- पर ।

श्री एम वी एल नरसिम्हा राव को वरिष्ठ निजी सचिव, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित), डी आर डी ओ में 16.12.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4800/- पर ।

श्रीमती एम आर कात्यायिनी को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 12.01.2016 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5400 पर ।

श्रीमती एम बी सीसीलिया को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 12.01.2016 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5400/- पर ।

श्री सुरेश पी काम्बले को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 12.01.2016 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5400 पर ।

श्री एस रामा कृष्णा को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 12.01.2016 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5400/- पर ।

श्रीमती वी वान्मती को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 12.01.2016 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5400/- पर ।

श्रीमती उषा सुरेश को सहायक निदेशक (राजभाषा), ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में डी आर डी ओ में 01.09.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5400/- पर ।

श्रीमती अनिता सेठी को वरिष्ठ निजी सचिव, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित), डी आर डी ओ में 18.12.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4800/- पर ।

श्रीमती एच सत्यावती को निजी सचिव, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित), डी आर डी ओ में 23.11.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4600/- पर ।

श्री सी एच विजय कुमार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी- II, ग्रुप 'ए'(राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 12.01.2016 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15600-39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5400/- पर ।

श्रीमती निशा मनोहरन को वरिष्ठ निजी सचिव, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित), डी आर डी ओ में 31.12.2015 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4800/- पर ।

श्रीमती जी एस रतना कुमारी को वरिष्ठ निजी सचिव, ग्रुप 'बी'(राजपत्रित), डी आर डी ओ में 04.01.2016 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9300-34800 (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4800/- पर ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई पदों तथा तारीख से डीआरडीओ में सहर्ष पदोन्नतियां करते हैं :—

नाम	पद	स्था/प्रयो0	कार्यभार ग्रहण की तारीख	पे बैंड तथा ग्रेड पे
श्री दिलीप कुमार गांधी	प्रशासनिक अधिकारी	डीएल, जोधपुर	01.01.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री मोहन चन्द्र	निजी सचिव	आईआरडीई, देहरादून	01.07.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री एच बी रामाकृष्णा	निजी सचिव	केयर, बैंगलोर	24.09.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्रीमती ए सरला	प्रशासनिक अधिकारी	केयर, बैंगलोर	01.10.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री एस वाई डामसे	प्रशासनिक अधिकारी	आर एण्ड डीई, पुणे	21.01.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री बी हनुमंथारायप्पा	सुरक्षा अधिकारी	जीटीआरडी, बैंगलोर	30.10.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री प्रणय कुमार दास	लेखाधिकारी	पीएक्सई, बालासोर	16.11.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री भद्रा सोरन	सुरक्षा अधिकारी	पीएक्सई, बालासोर	26.11.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्रीमती के पदमावती देवी	वरिष्ठ निजी सचिव,	डीएलआरएल, हैदराबाद	17.12.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4800
श्रीमती शोभा शर्मा	निजी सचिव	सी सी आर एण्ड डी (टीएम) नई दिल्ली	21.12.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री भारत मलिक	निजी सचिव	डीएल, जोधपुर	21.12.2015	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री एम बी नरसिम्हा राजू	सुरक्षा अधिकारी	एलआरडीई, बैंगलोर	01.01.2016	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्रीमती शोभना एम आर	निजी सचिव	एलआरडीई, बैंगलोर	01.01.2016	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री प्रकाश जी	निजी सचिव	एलआरडीई, बैंगलोर	01.01.2016	पीबी2, ग्रेड पे 4600
श्री पी विजय कुमार	निजी सचिव	डीएमआरएल, हैदराबाद	01.01.2016	पीबी2, ग्रेड पे 4600

राजीव रंजन सिन्हा
उप निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 2nd April 2016

PRESIDENT'S SECRETARIAT

No. 11-Pres/2016, the 26th January 2016—The President is pleased to approve the award of the “Kirti Chakra” to the undermentioned persons for the acts of conspicuous gallantry :—

1. SHRI GAUTAM KOCH, ASSAM ARMED BRANCH CONSTABLE (POSTHUMOUS)

{Effective date of the award : 23 June 2014}

Based on specific information regarding movement of some United Peoples Liberation Army (UPLA) cadres on 23-06-2014 midnight at about 0030 hours, Additional Superintendent of Police (HQ), Diphu and incharge of Dhansiri Outpost along with PRC and ½ section of 23rd Assam Police (Indian Reserve) Battalion launched an operation at Ramsing Hanse Gaon, under Dhansiri Outpost of Diphu Police Station. During operation, the team arrived at the house of Miss Kajir Hansepi and Miss Karengso Hansepi at Ramsing Hasnse Gaon, where some armed United Peoples Liberation Army cadres were hiding. The security forces asked them to surrender. But, the armed cadres started firing indiscriminately on the security forces by coming out of the house. Immediately Shri Gautam Koch, with his sheer courage and presence of mind, retaliated the firing and other Police officers and men who participated in the operations, also fired. As a result, one United Peoples Liberation Army cadre died on the spot and another managed to flee away. Shri Gautam Koch, during the encounter confronted face to face with the UPLA extremists, sustained bullet injury on his head and died in the hospital during treatment. The slain UPLA cadre was identified as an Ex-United Peoples Democratic Solidarity cadre, namely Rajib Engleng @ Sonjib Engleng. During search of the spot, the following articles were recovered one AK-56 rifle with magazine, 27 live rounds of 7.62 mm ammns, three empty case of 7.62 mm ammns, Seven empty case of 9 mm ammns, four live rounds of 9 mm ammns, four demand letters of UPLA, One blank pad, one identity card in the name of Rajib Engleng issued by UPDS and one voter ID in the name of Kareng Hansepi.

Constable Gautam Koch displayed indomitable courage, determination and conspicuous gallantry and made supreme sacrifice in fighting with the insurgents.

2. SHRI RAJESH ATRA, HEAD CONSTABLE, SPECIAL TASK FORCE, DURG, CHHATTISGARH

{Effective date of the award : 11 April 2015}

On 10th April 2015, Shri Shankar Rao, Platoon Commander temporarily camping at PS Polampalli, Distt Sukma got an intelligence input about the presence of 25 armed CPI (Maoist) cadres near village Pidmel. Shri Shankar Rao, immediately briefed his team of 49 (01 PC, 22 CTs, 23 Asstt CTs), took extra ammunition & planned an offensive operation. As per plan, Shri Shankar Rao left with his team for operation on 11th April 2015 at around 02:00 hours, taking a cross country route to Pidmel.

On conducting search, STF team did not find Maoists' presence near village Pidmel. The team left the village and decided to halt on a small hillock near Pidmel in the morning for a break. Meanwhile, Maoists, who were camping in between Pidmel & Dabbakonta got information of Police movement, stealthily followed the police party and on reaching the hillock, started encircling the STF party.

After the search, the security personnel halted near RV Point .209. Shri Shankar Rao noticed some suspicious movement and exhibiting exemplary leadership qualities moved in that direction to ascertain the cause of the sudden movement. But the brave leader was hit on the chest by a bullet from the Maoists who were in the process of encircling the hillock. Shri Shankar Rao even after being mortally wounded alerted the rest of the party. Shri Shankar Rao succumbed to his injuries.

After Shri Shankar Rao was martyred on the spot, Shri Atra, Head Constable suo motto took command of the party. This action motivated the security personnel and enabled them to function as a team after the death of their commander. Shri Atra showing great presence of mind decided to move ahead by breaking through the Maoist ambush. For this he himself fired with UBGL and the impact of this area weapon succeeded in scattering the Maoists party. However, moving ahead the party was caught in a second ambush. Shri Atra and his men fought valiantly with the Maoist. The Maoist also planted a third ambush ahead. Shri Atra fired the UBGL cell which resulted in the death of three Maoists and the third ambush also failed miserably. Shri Rajesh Atra not only led his team back to safety but ensured that all the injured police personnel were brought back and the arms of the martyred officer/jawans could not be looted. During this fierce gun battle 07 Jawans, including Shri Shankar Rao, got martyred & 10 Jawans sustained bullet injuries.

Head Constable Rajesh Atra displayed exemplary leadership, tactical acumen and conspicuous gallantry in the face of fierce gun battle with the Maoist extremists.

3. JC-413444W SUBEDAR MAHENDRA SINGH, SENA MEDAL, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ATTACHED WITH 6TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

{Effective date of the award : 02 September 2015}

Subedar Mahendra Singh was a veteran of numerous firefights, where, time and again his inspiring leadership, resilience and courage resulted in outstanding successes. He had been awarded Sena Medal on the Line of Control for exemplary courage and initiative wherein he shot dead a Pakistan Regular Army in 2013.

On 02 Sep 2015 at 2015 hours, contact was established with terrorists in Haphruda forest at Kupwara district of Jammu and Kashmir resulting in multiple splinter injuries to two comrades. Displaying exemplary leadership, Subedar Mahendra Singh moved with Lance Naik Mohan Nath Goswami to evacuate his comrades, drawing heavy fire in the process. Sensing the danger to his men, Subedar Mahendra immediately returned fire and displaying raw aggression charged and eliminated one terrorist at close quarters. His audaciousness startled the other terrorist who opened indiscriminate fire at him. Undeterred, he closed in with the terrorists when one terrorist rushed out firing and grievously wounded Subedar Mahendra in the abdomen. Despite his injury which paralyzed him below the waist, he shot dead the terrorist at point blank range. Heedless of the threat posed by the terrorist fire and his incapacitating wound, he, in order to prevent any further casualties, forbade all attempts to evacuate him and endured tremendous pain to extricate himself.

Subedar Mahendra Singh displayed exemplary leadership and conspicuous gallantry in fighting with the terrorists.

4. 3986807H SEPOY JAGDISH CHAND, 546 DEFENCE SECURITY CORPS PLATOON (POSTHUMOUS)

{Effective date of the award : 02 January 2016}

Sepoy Jagdish Chand was posted with 546 Defence Security Platoon attached with 18 Wing Air Force. On the night of 01/02 Jan 2016 at 0330 hr while the individual was working on bonafide military duty at Defence Service Corps lines, five to six heavily armed terrorists entered the lines and opened indiscriminate fire on the troops working in the said location. The heavy firing resulted in two of his colleagues being fatally wounded. Showing presence of mind and conspicuous bravery Sepoy Jagdish Chand unmindful of his own safety ran after the closest terrorist, chased and overpowered him. Sepoy Jagdish Chand snatched the terrorist's weapon to shoot him dead. In the process two more terrorists in vicinity opened fire on Sepoy Jagdish Chand killing him on the spot.

Sepoy Jagdish Chand displayed great presence of mind, valour and conspicuous gallantry and made supreme sacrifice in fighting with the terrorists.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 12-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Shaurya Chakra” to the undermentioned persons for the acts of gallantry :—

1. 4577583P SEPOY DHARMA RAM, THE MAHAR REGIMENT/1ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

{Effective date of the award : 25 May 2015}

On 25 May 2015 Sepoy Dharma Ram was part of a patrol launched by Major Kobitirha Sanyal towards village Kanjikul at Kulgam district of Jammu and Kashmir. At 1300 hours the patrol came under sudden heavy volume of fire from a nearby house. Sepoy Dharma Ram exhibited exemplary presence of mind to warn his team of the direction of fire and encountered the terrorist fearlessly in a direct firefight. He selflessly put himself in the face of terrorist fire and fought with nerves of steel to prevent any team member from getting injured.

During the firefight the individual sustained two bullet wounds on his back and thigh. Unmindful and undeterred from the grave injury and although bleeding profusely the individual exhibited exemplary field craft to crawl to an appropriate position from where he brought accurate fire on the terrorist and injured him gravely. The terrorist was thus neutralized and identified as Lashkar-e-Toiba District Commander.

Sepoy Dharma Ram displayed courage beyond the call of duty, dogged determination and gallantry and made supreme sacrifice in fighting with the terrorist.

2. SL-05351Y LIEUTENANT HARJINDER SINGH / THE GENERAL SERVICE / 3RD BATTALION THE KUMAON REGIMENT

{Effective date of the award : 05 June 2015}

On 05 June 2015, Lieutenant Harjinder Singh was the Commander of Halka Zero Ambush Point at Jammu and Kashmir. At 2230 hours, a group of three terrorists was spotted in front of Halka Zero. Lieutenant Harjinder Singh

continuously tracked the move of terrorists and immediately assessed the situation and brought down effective fire and engaged the infiltrators. The effective fire forced the terrorists to move along the Anti Infiltration Obstacle System to a higher ground towards Halka One. The terrorists split into two groups to divert attention and escape. At 0500 hours the officer moved to engage the terrorists. Using battle drills he spotted the group ahead of Bus Stop. Displaying exemplary courage, he accurately fired the Multi Grenade Launcher and neutralized the first terrorist. In the mean time the second terrorist opened with automatic fire. Undeterred by the terrorist fire, the officer closed in with the terrorist and neutralized him at close quarters. Despite grave danger to him, the officer continuously maintained contact with the terrorists and eliminated them in a surgical manner.

Lieutenant Harjinder Singh displayed raw courage, fortitude and bravery under strenuous operational conditions in the elimination of three terrorists.

3. IC-70237P MAJOR PRAPHUL KUMAR BHARDWAJ, 12TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

{Effective date of the award : 15 July 2015}

Major Praphul Kumar Bhardwaj launched a special operation in Awankhu village in Phek district of Nagaland, 120 km from the closest existing Assam Rifles post on the night of 13 July 15. Negotiating thick forests and treacherous slopes in extreme and inclement weather, Major Praphul's party reached the target at 2300 hours, 15 July 15.

At 2345 hours, on observing some movement around a hut, Major Praphul along with a buddy pair closed in to ascertain the movement upon which they drew heavy volume of fire. Sensing danger to his party, in absence of any cover and accurate incoming fire, Major Praphul charged onto the hut and neutralized one terrorist at point blank range. During this action, he sustained Gun Shot Wound in his right elbow as also his weapon was hit by a bullet, thereby jamming it. Despite profusely bleeding, with his weapon now non functional and his party pinned down, Major Praphul, utterly disregarding his personal safety, crawled and lobbed two grenades in the hut and neutralized the second terrorist.

Major Praphul Kumar Bhardwaj displayed exemplary gallantry and acted beyond the call of duty, while fighting with the terrorists.

4. CONSTABLE SHRI ROCKY, 59 Bn, BSF (POSTHUMOUS)

{Effective date of the award : 05th Aug 2015}

On 5th August, 2015 at about 0420 hrs, BSF convoy of Kashmir Frontier consisting of 21 vehicles (Light Vehicles-02, Medium Vehicles-3, Heavy Vehicles-9 and Buses-07), carrying 522 BSF personnel (466 passengers and 56 guards) left transit camp, Jammu for Srinagar under command of Shri N. K. Sharma, AC.

The road had a number of bends and curves hence the visibility was restricted. At about 0730 hrs, when the convoy was negotiating a sharp turn at Narsoo Nala, near village Simrauli, 17 Km from Udhampur, a militant armed with automatic weapon suddenly appeared before BSF bus bearing Regd No. JK-01K-3851, driven by Constable (Driver) Daljit Singh of 02 Battalion, BSF. The bus was at 15th position in the convoy. Forty four jawans were sitting in the said bus. Constable Rocky of 59 Battalion, BSF was escorting the bus as guard.

The militant initially targeted the front side of the bus. As a result of which the left tyre of bus was deflated and Constable (Driver) Daljit Singh received grievous bullet injuries. In spite of this, he did not lose his control over the bus and brought it to a safe halt avoiding collision in hilly terrain demonstrating excellent presence of mind. The militant then opened a heavy volley of fire on the occupants of bus and in the process moved around the stationary bus firing relentlessly from all around. In the meantime, another militant taking position in high ground on left side also opened indiscriminate fire on the bus, causing grievous injuries to the occupants of the bus.

Constable Rocky also received grievous bullet injuries and started bleeding profusely. However, he without caring for his injuries, effectively engaged the militants by firing bullets from his personal weapon. He was also constantly shouting and asking the occupants of the bus to duck down and to remain low to avoid casualties.

Constable Subhendu Roy of 2nd Battalion, BSF, who was also travelling as a passenger, kept informing the position of the militant to Constable Rocky. When the militant was trying to enter the bus forcefully, Constable Subhendu Roy swiftly rushed towards the front gate of bus and tightly held the door to prevent entry of the militant. The militant opened fire and injured him grievously. In spite of grievous bullet injuries, Constable Subhendu Roy denied entry of militant in the bus. Then the militant tried to enter the bus through rear gate. But Constable Godhraj Meena, 18 Bn BSF, who was sitting in rear portion of the bus immediately rushed towards rear gate and stood firmly to prevent entry of the militant amid heavy volley of fire. The militant fired at him but he did not allow the militant to enter into the bus, in spite of bullet injuries. In the meantime, Constable Rocky was continuously engaging the militant. When the militant was in the process of lobbing a grenade in the bus, Constable Rocky rushed to the door and killed the militant with effective fire.

Meanwhile, the militant who was taking position in high ground on left side hills, managed to flee the site. He held some civilians captive but was later overpowered and accosted by civilians. Constable Rocky displayed exemplary gallantry and courage under heavy odds in fighting with the militant and made supreme sacrifice.

5. SHRI BIKRAMJEET, PRIVATE EMPLOYEE, PESTICIDE FACTORY, UPL, DISTT. JAMMU, J & K

{Effective date of the award : 05 August 2015}

On 05 August 2015 at about 0700 hrs, a BSF convoy which was on its way from Jammu to Kashmir Valley was attacked by some unknown terrorists. On receipt of this information, police parties of District Police Udhampur and other security forces deployed on the National Highway rushed to the spot immediately and retaliated the fire. During the fierce encounter, one terrorist was eliminated whereas another terrorist managed to give slip to the security forces by taking the advantage of dense forests. While fleeing, the said terrorist made two persons namely Shri Des Raj and Shri Romesh Kumar hostage on gun point and took them along to work as guide in pursuit of getting safe passage to avoid his death/arrest from the hands of police/security forces, who had launched intensive search/cordon operation in the area. After, covering a distance of about 150 to 200 meters, the said terrorist came across two more civilians namely Shri Bikramjeet and Shri Rakesh Kumar Sharma and also made them hostages in the similar manner. Again after covering a distance of 02 kilometers, the said terrorist made one more civilian namely Shri Raj Kumar as hostage and took along all the five civilians as hostage on gun point. After covering some distance, out of these five civilians, three gave slip to the terrorist and managed to escape from his clutches. But, the remaining two hostages namely Shri Bikramjeet and Shri Rakesh Kumar Sharma exhibited a great sense of presence of mind when they engaged the above mentioned terrorist in conversation with the objective to get an opportune time to overpower him. They seized the first available chance by grappling the terrorist and overpowered him.

Shri Bikramjeet instantly snatched AK-47 rifle from the terrorist thus disarming him. Whereas Shri Rakesh Kumar Sharma by jumping over him caught hold the terrorist from his neck and disabled him by tying him with the rope. Both the civilians displayed a great act of bravery by putting their lives to a great risk. Later the militant was handed over to Police party which reached there subsequently. The arrested terrorist was identified as Mohd. Naveed S/o Mohd. Yaqoob R/o Gulam Mohamadabad, Faisalabad, Pakistan and the identity of the slain militant was established as Mohd Nomen @ Nomin S/o N/K r/o Bhawalpur, Pakistan. The role played by these two civilians averted the loss to the precious lives of the villagers/security forces and also helped the police/security forces to further reach to their sympathizers/helpers and also to neutralize their conduits in other parts of the state.

Shri Bikramjeet thus exhibited a great presence of mind and bravery and apprehended a dreaded militant without caring for his life saving further loss of the precious lives of the villagers/security forces.

6. SHRI RAKESH KUMAR SHARMA, DISTT. UDHAMPUR, J & K

{Effective date of the award : 05 August 2015}

On 05.08.2015 at about 0700 hrs, a BSF convoy which was on its way from Jammu to Kashmir Valley was attacked by some unknown terrorists. On receipt of this information, police parties of District Police Udhampur and other security forces deployed on the National Highway rushed to the spot immediately and retaliated the fire. During the fierce encounter, one terrorist was eliminated whereas another terrorist managed to give slip to the security forces by taking the advantage of dense forests. While fleeing, the said terrorist made two persons namely Shri Des Raj and Shri Romesh Kumar hostage on gun point and took them along to work as guide in pursuit of getting safe passage to avoid his death/arrest from the hands of police/security forces, who had launched intensive search/cordon operation in the area. After, covering a distance of about 150 to 200 meters, the said terrorist came across two more civilians namely Shri Bikramjeet and Shri Rakesh Kumar Sharma and also made them hostages in the similar manner. Again after covering a distance of 02 kilometers, the said terrorist made one more civilian namely Shri Raj Kumar as hostage and took along all the five civilians as hostage on gun point. After covering some distance, out of these five civilians, three gave slip to the terrorist and managed to escape from his clutches. But, the remaining two hostages namely Shri Bikramjeet and Shri Rakesh Kumar Sharma exhibited a great sense of presence of mind when they engaged the above mentioned terrorist in conversation with the objective to get an opportune time to overpower him. They seized the first available chance by grappling the terrorist and overpowered him.

Shri Bikramjeet instantly snatched AK-47 rifle from the terrorist thus disarming him. Whereas Shri Rakesh Kumar Sharma by jumping over him caught hold the terrorist from his neck and disabled him by tying him with the rope. Both the civilians displayed a great act of bravery by putting their lives to a great risk. Later the militant was handed over to Police party which reached there subsequently. The arrested terrorist was identified as Mohd. Naveed S/o Mohd. Yaqoob R/o Gulam Mohamadabad, Faisalabad, Pakistan and the identity of the slain militant was established as Mohd Nomen @ Nomin S/o N/K r/o Bhawalpur Pakistan. The role played by these two civilians averted the loss to the precious lives of the villagers/security forces and also helped the police/security forces to further reach to their sympathizers/helpers and also to neutralize their conduits in other parts of the state.

Shri Rakesh Kumar Sharma thus exhibited great presence of mind and bravery and exemplary bravery and apprehended a dreaded militant without caring for his life saving further loss of the precious lives of the villagers/security forces.

7. 4190712P NAIK KHEEM SINGH MEHRA, 21ST BATTALION THE KUMAON REGIMENT

{Effective date of the award : 09th August 2015}

On night 08 August 2015, three terrorists attempted infiltration in area Lara along Jumagund Nar on Line of Control at Jammu and Kashmir. Naik Kheem Singh Mehra was deployed as a part of ambush to prevent their escape.

At 0530 hours, the terrorist group was spotted by Naik Kheem Singh moving in the jungle across Jumagund Nar towards Line of Control. Displaying tenacity, grit and total audacity, Naik Kheem Singh advanced across the Nala, climbed on opposite spur and engaged the terrorists at close range killing one terrorist on the spot and preventing their escape.

Heavy exchange of fire commenced between terrorists, Naik Kheem Singh and balance of ambush party. Taking cover of boulder and trees, the terrorists maneuvered to flank the main ambush party. Sensing imminent danger to own comrades, Naik Kheem Singh with utter disregard to personal safety, broke cover and charged the terrorists killing another terrorist in close quarter fire fight.

Naik Kheem Singh Mehra displayed raw courage, audacity in face of grave personal danger and an indomitable fighting spirit in elimination of two dreaded foreign terrorists.

8. IC-71516M MAJOR SANDIP YADAV, THE ARMOURED CORPS / 55TH BATTALION, THE RASHTRIYA RIFLES

{Effective date of the award : 10 August 2015}

Major Sandip has been operating in Pulwama since Jul 2013 and his flair for generating intelligence and conduct of operations is exemplary.

On 10 August, information was received about presence of terrorists in village Ratanpur at Pulwama district of Jammu and Kashmir. Major Sandip while moving cross country noticed a suspicious movement in a paddy field. The two terrorists immediately opened indiscriminate fire at the officer. Major Sandip stood his ground and retaliated the fire which pinned down the terrorists. Undeterred by heavy fire and showing exceptional presence of mind, the officer redeployed his team which prevented the escape of terrorists.

On 11 August, after a gruelling eighteen hours of firefight, Major Sandip decided to crawl close to the terrorists in an open area without any cover. As he was doing so, he came under heavy fire. Unmindful of the grave danger and showing raw courage under heavy fire with utter disregard to personal safety, he crawled close and eliminated both the terrorists. The bold action ensured elimination of two Lashker tanzeem terrorists as well as no collateral damage.

Major Sandip Yadav displayed exemplary leadership, fearlessness in face of intense firing and gallantry in the elimination of two terrorists.

9. IC-71155Y MAJOR ANURAG KUMAR, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ATTACHED WITH 32ND BATALLION THE RASHTRIYA RIFLES{Effective date of the award : 26TH August 2015}

Major Anurag Kumar was leading a helicopter inserted 9 PARA (Special Forces) Team in Search and Destroy Operations in Lidder Panzal at Baramulla district of Jammu and Kashmir on 26/27 August 2015.

Post insertion, Major Anurag led his squads to the location where terrorists were last seen and organized the search. At 1400 hours on 26 August 2015, the officer observed suspicious movement behind boulders and deployed his squads before shouting a challenge which drew indiscriminate terrorist fire. Realising grave threat to his men from the ricocheting bullets, the officer risked his safety and under covering fire of Havildar Virender Singh and Naik Javid Ahmad Chopan closed in with and eliminated one terrorist. Major Anurag then established a cordon to cut off escape of remaining terrorists. At 1100 hours on 27 August 2015 one terrorist attempting to break cordon rushed out firing indiscriminately. Unmindful of the heavy fire and displaying immense courage Major Anurag engaged and shot dead the terrorist at close quarters. He further engaged one trapped terrorist in a conversation thereby assisting Naik Chopan in his apprehension.

Major Anurag Kumar displayed exceptional tactical acumen, selflessness, inspiring leadership and gallantry beyond compare while fighting with the terrorist.

10. IC-58160L COLONEL SANTOSH YASHWANT MAHADIK, SENA MEDAL, THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) / 41ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS){Effective date of the award : 17th November 2015}

Colonel Santosh Yashwant Mahadik, SM, a dynamic officer from the Parachute Regiment (Special Forces) was commanding 41 Rashtriya Rifles from July 2014. Col Santosh with his inspirational leadership and humane skills altered the narrative of Kupwara town through successful OP SADBHAVANA initiatives in education, sports and health care.

Colonel Santosh was leading a search operation based on specific input about the likely presence of terrorists in general area Manigah Forest of Kupwara district of Jammu and Kashmir on 17 November 2015. At about 1215 hours, he

received an input about the likely movement of terrorists in the forested area near Kashmiri Manigah. Always having led from the front, Colonel Santosh along with his Quick Reaction Team (QRT) expeditiously moved to the suspected site. As the team was deploying, they came under heavy and effective fire of terrorists hiding in the forest. Pinned down by the terrorists fire in the open, he immediately maneuvered to outflank the terrorists and engaged them from an advantageous position. Underterred by the heavy volume of terrorists fire and with utter disregard to personal safety, Colonel Santosh provided his troops an opportunity to take cover. In the fire fight however, he suffered multiple gunshot wounds. Unmindful of his grievous injuries, Colonel Santosh kept the terrorists pinned down till he was evacuated. He later succumbed to his injuries and attained martyrdom.

Colonel Santosh Y Mahadik made the supreme sacrifice in keeping with the highest traditions of the Indian Army while ensuring safety of the troops he commanded and personally led from the forefront.

Colonel Santosh Yashwant Mahadik displayed exemplary leadership, utmost dedication to duty and gallantry and made the supreme sacrifice while fighting with the terrorists.

11. 15614460W NAIK SATISH KUMAR, BRIGADE OF THE GUARDS/21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

{Effective date of the award : 04th December 2015}

Naik Satish Kumar was serving with 21 Rashtriya Rifles since 07 April 2015.

On 04 December 2015, he was commanding a small team as part of search and destroy operation in Boban Wastar Forest. Observing speed and stealth, he led his small team to the likely target area, searching the forest cautiously and deliberately. At 1305 hours, Naik Anil was suddenly fired upon by terrorists injuring him. Realising Naik Anil being hit, Nk Satish Kumar crawled ahead to a fallen tree, engaged and eliminated one terrorist at close range. He then provided Nk Anil first aid and ensured his timely evacuation. Simultaneously, the second hidden terrorist opened fire injuring him on his right leg. Unmindful of his injury, Nk Satish engaged this terrorist and despite profuse bleeding closed in, lobbing two hand grenade towards the terrorist who was still firing and killed him. However, during his assault towards the terrorist he suffered another gunshot wound and attained martyrdom.

Naik Satish Kumar displayed extraordinary courage, commitment beyond call of duty in eliminating two hardcore terrorists before making the ultimate sacrifice.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 13-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Param Vishisht Seva Medal” to the under mentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :—

1. IC-31633P LIEUTENANT GENERAL ARUN KUMAR SAHNI, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/REGIMENT OF ARTILLERY
2. IC-31663M LIEUTENANT GENERAL RAKESH NANDAN, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL/ARMY AIR DEFENCE
3. IC-34003A LIEUTENANT GENERAL MANMOHAN SINGH RAI, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/CORPS OF ENGINEERS
4. IC-34014M LIEUTENANT GENERAL AMIT SHARMA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/ARMoured CORPS
5. IC-34019L LIEUTENANT GENERAL DEEPENDRA SINGH HOODA, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR/INFANTRY
6. IC-34098L LIEUTENANT GENERAL HARMINDERJIT SINGH SACHDEV, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL/INFANTRY
7. IC-34350Y LIEUTENANT GENERAL KAMALJIT SINGH, ATI VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR/ARMoured CORPS
8. IC-34356A LIEUTENANT GENERAL NAVKIRAN SINGH GHEI, ATI VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR/INFANTRY
9. IC-34385P LIEUTENANT GENERAL ANIL KUMAR AHUJA, UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR/REGIMENT OF ARTILLERY

10. IC-34392L LIEUTENANT GENERAL GURMIT SINGH
UTTAM YUDH SEVA MEDAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA
MEDAL/INFANTRY
11. IC-34396F LIEUTENANT GENERAL RAVINDRAN NARAYAN NAIR, ATI VISHISHT SEVA
MEDAL, SENA MEDAL/INFANTRY
12. IC-34402K LIEUTENANT GENERAL GHANSHYAM SINGH KATOCH, ATI VISHISHT SEVA
MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
13. IC-34454A LIEUTENANT GENERAL GURDEEP SINGH,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
14. IC-34775X LIEUTENANT GENERAL RAVINDRA VASANTRAO THODGE, ATI VISHISHT SEVA
MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
15. IC-34890X LIEUTENANT GENERAL SRINIVASAN LAKSHMI NARSIMHAN, ATI VISHISHT
SEVA MEDAL AND BAR, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
16. IC-35036X LIEUTENANT GENERAL NITIN KUMAR KOHLI,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/CORPS OF SIGNALS
17. IC-35040A LIEUTENANT GENERAL RAKESH MOHAN MITTAL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL,
SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/CORPS OF ENGINEERS (RETIRED)
18. IC-35226K LIEUTENANT GENERAL KOCHERLAKOTA GOPALA KRISHNA, ATI VISHISHT
SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
19. IC-37022W LIEUTENANT GENERAL SANJAY KULKARNI, ATI VISHISHT SEVA MEDAL,
SHAURYA CHAKRA, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
20. MR-04133N LIEUTENANT GENERAL BHUSHAN KUMAR CHOPRA, ATI VISHISHT SEVA
MEDAL/ARMY MEDICAL CORPS
21. VICE ADMIRAL PARASURAMA NAIDU MURUGESAN,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL (01958-Z)
22. VICE ADMIRAL SAROJ KUMAR JHA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, NAO SENA MEDAL
(01866-R) (RETIRED)
23. VICE ADMIRAL ASHOK VISHWANATH SUBHEDAR, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT
SEVA MEDAL (40735-B)
24. AIR MARSHAL JAGJEET SINGH, VISHISHT SEVA MEDAL, (14814) AERONAUTICAL
ENGINEERING (ELECTRONICS) (RETIRED)
25. AIR MARSHAL HERIKUDRU BABU RAJARAM, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT
SEVA MEDAL (14939), ADMINISTRATION / AIR TRAFFIC CONTROLLER (RETIRED)
26. AIR MARSHAL POCHANA PRASAD REDDY, VAYU SENA MEDAL, ADC (15008) FLYING
(PILOT) (RETIRED)
27. AIR MARSHAL KULWANT SINGH GILL, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH SEVA MEDAL,
VAYU SENA MEDAL, (15220) FLYING (PILOT) (RETIRED)
28. AIR MARSHAL BIRENDER SINGH DHANOA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH SEVA
MEDAL, VAYU SENA MEDAL, ADC (15405) FLYING (PILOT)
29. AIR MARSHAL SHIRISH BABAN DEO, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VAYU SENA MEDAL,
VISHISHT SEVA MEDAL, ADC (15681) FLYING (PILOT)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 14-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Uttam Yuddh Seva Medal” to the under mentioned personnel for the distinguished service of an exceptional order during hostilities :—

1. IC-35206W LIEUTENANT GENERAL KONSAM HIMALAY SINGH,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH SEVA MEDAL / INFANTRY HEADQUARTERS 16 CORPS
2. IC-35471M LIEUTENANT GENERAL BIPIN RAWAT,
ATI VISHISHT SEVA MEDAL, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL /
INFANTRY HEADQUARTERS 3 CORPS

3. IC-35479Y LIEUTENANT GENERAL BALWANT SINGH NEGI, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR/INFANTRY HEADQUARTER 14 CORPS
4. IC-35494N LIEUTENANT GENERAL SUBRATA SAHA, YUDH SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR/ INFANTRY HEADQUARTERS 15 CORPS
5. IC-35904Y LIEUTENANT GENERAL SARATH CHAND, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / INFANTRY HEADQUARTERS 4 CORPS

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 15-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “BAR TO ATI VISHISHT SEVA MEDAL” to the under mentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. IC-35173W LIEUTENANT GENERAL RAYMOND JOSEPH NORONHA, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL / INFANTRY
2. IC-35650M LIEUTENANT GENERAL BOBBY CHERIAN MATHEWS, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL / INFANTRY
3. IC-35919F LIEUTENANT GENERAL AMARJEET SINGH, ATI VISHISHT SEVA MEDAL, SENA MEDAL / INFANTRY
4. AIR MARSHAL KARATH PADMADASS NAIR, ATI VISHISHT SEVA MEDAL (15195) FLYING (PILOT) (RETIRED)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 16-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Ati Vishisht Seva Medal” to the under mentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

1. IC-31634X LIEUTENANT GENERAL RAVINDRA SINGH PANWAR, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/CORPS OF SIGNALS
2. IC-34028M LIEUTENANT GENERAL ANIRUDDHA CHAKRAVARTY, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
3. IC-34148L LIEUTENANT GENERAL RAJENDRA PRASAD RAI, VISHISHT SEVA MEDAL/ARMY SERVICE CORPS
4. IC-34708M LIEUTENANT GENERAL GOPAL SINGH BISHT, VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF SIGNALS
5. IC-34765N LIEUTENANT GENERAL IQBAL SINGH SINGHA, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
6. IC-34838P LIEUTENANT GENERAL JOHN GEORGE, VISHISHT SEVA MEDAL/REGIMENT OF ARTILLERY
7. IC-34901Y LIEUTENANT GENERAL PALEPU RAVI SHANKAR, VISHISHT SEVA MEDAL/REGIMENT OF ARTILLERY
8. IC-34954X LIEUTENANT GENERAL AMIT SARIN, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/ARMY ORDNANCE CORPS
9. IC-35109Y LIEUTENANT GENERAL RAJEEV VASANT KANITKAR, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/ ARMoured CORPS
10. IC-35115M LIEUTENANT GENERAL JAGBIR SINGH, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/MECHANISED INFANTRY
11. IC-35137L LIEUTENANT GENERAL PATTIARIMAL MOHAMADALI HARIZ, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/MECHANISED INFANTRY

12. IC-35602M LIEUTENANT GENERAL ASHOK BHIM SHIVANE,
VISHISHT SEVA MEDAL/ARMoured CORPS
13. IC-35796A LIEUTENANT GENERAL KANWAL JEET SINGH,
VISHISHT SEVA MEDAL/CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
14. IC-35915L LIEUTENANT GENERAL RAJEEV TEWARI/ARMoured CORPS
15. IC-37247Y LIEUTENANT GENERAL GOVIND SINGH CHANDEL, YUDH SEVA
MEDAL/INFANTRY
16. IC-39818L LIEUTENANT GENERAL SURESH SHARMA, CORPS OF ENGINEERS
17. V-00347M LIEUTENANT GENERAL JAGVINDER SINGH,
VISHISHT SEVA MEDAL/REMOUNT VETERINARY CORPS
18. IC-35480N MAJOR GENERAL SURINDER SINGH,
SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
19. IC-38747H MAJOR GENERAL RAMKISHAN SAIWAL, VISHISHT SEVA MEDAL/ARMY
ORDNANCE CORPS
20. IC-38487H MAJOR GENERAL PAMPAPATI DODDAPPA HALLUR, VISHISHT SEVA MEDAL/
INFANTRY
21. IC-39342K MAJOR GENERAL RAJESH SAHAI, SENA MEDAL/INFANTRY
22. IC-39522M MAJOR GENERAL JAIVEER SINGH NEGI,
YUDH SEVA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL AND BAR/INFANTRY
23. IC-39656L MAJOR GENERAL DINESH SHARMA, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
24. IC-40314K MAJOR GENERAL CHANDI PRASAD MOHANTY,
SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
25. IC-40353H MAJOR GENERAL PARAMJIT SINGH, SENA MEDAL/INFANTRY
26. IC- 40360Y MAJOR GENERAL ASIT BHAILAL MISTRY,
SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
27. IC-40382X MAJOR GENERAL ARVIND DUTTA, VISHISHT SEVA MEDAL/INFANTRY
28. IC-40500A MAJOR GENERAL YOGESH KUMAR JOSHI,
VIR CHAKRA, SENA MEDAL / INFANTRY
29. IC-40716F MAJOR GENERAL MANOJ PANDE,
VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF ENGINEERS
30. VICE ADMIRAL SRIKANT (02297-W)
31. VICE ADMIRAL R HARI KUMAR, VISHISHT SEVA MEDAL (02540-Y)
32. VICE ADMIRAL MURLIDHAR SADASHIV PAWAR,
VISHISHT SEVA MEDAL (02483-T)
33. VICE ADMIRAL AJENDRA BAHADUR SINGH, VISHISHT SEVA MEDAL (02619-A)
34. REAR ADMIRAL KISHAN KUMAR PANDEY, VISHISHT SEVA MEDAL (02329-T)
35. REAR ADMIRAL SRI PRAKASH LAL, VISHISHT SEVA MEDAL (40973-W)
36. REAR ADMIRAL RAJASEKHARA SARMA SISHTLA, VISHISHT SEVA MEDAL (50832-A)
37. AIR MARSHAL ANIL KHOSLA, VAYU SENA MEDAL (15871) FLYING (PILOT)
38. AIR MARSHAL CHANDRASHEKHARAN HARI KUMAR,
VAYU SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL (15881) FLYING (PILOT)
39. AIR VICE MARSHAL PRAVEEN KUMAR, VISHISHT SEVA MEDAL (15970) AERONAUTICAL
ENGINEERING (MECHANICAL)
40. AIR VICE MARSHAL ARCHAN KUMAR BHATTACHARYA, VISHISHT SEVA MEDAL (16322)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
41. AIR VICE MARSHAL JITENDRA KUMAR SINGH, VISHISHT SEVA MEDAL (16545),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
42. AIR VICE MARSHAL RAJEEV SACHDEVA (16582) FLYING (PILOT)

43. AIR VICE MARSHAL SHAIK MAHABOOB SUBHANI (16865) ACCOUNTS
44. AIR COMMODORE TEJINDER SINGH SAREEN, VAYU SENA MEDAL (17138) FLYING (PILOT)
45. AIR COMMODORE SUNIL PADEGAONKAR, VISHISHT SEVA MEDAL(17279),
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
46. AIR COMMODORE KALLAPPA HOLLANAVAR SURESH,
VISHISHT SEVA MEDAL (18124) FLYING (PILOT)
47. AIR COMMODORE MANISH KHANNA, VAYU SENA MEDAL (18554) FLYING (PILOT)
48. AIR COMMODORE SUNIL KASHINATH VIDHATE, VAYU SENA MEDAL (18825) FLYING
(PILOT)
49. AIR COMMODORE HARPREET SINGH BASRA, VAYU SENA MEDAL (19174) FLYING (PILOT)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 17-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Yuddh Seva Medal” to the under mentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities :—

1. IC-39491X MAJOR GENERAL AJAY KUMAR DAS,
SHAURYA CHAKRA/INFANTRY, HEADQUARTERS 31 SUB AREA
2. IC-40366A MAJOR GENERAL ANAND SINGH RAWAT, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA
MEDAL/INFANTRY, COUNTER INSURGENCY FORCE (DELTA)
3. IC-40680N MAJOR GENERAL PANDALA NAGESH RAO, SENA MEDAL/INFANTRY,
HEADQUARTERS 57 MOUNTAIN DIVISION
4. IC-40685M MAJOR GENERAL RAJ SHUKLA, SENA MEDAL/REGIMENT OF ARTILLERY,
HQ 19 INFANTRY DIV
5. IC-44573K BRIGADIER SUDHIR KUMAR JHA, THE ASSAM REGIMENT, HQ 22ND SECTOR
ASSAM RIFLES
6. IC-47566Y BRIGADIER VM BHUVANA KRISHNAN, THE DOGRA REGIMENT,
HEADQUARTERS 102 INFANTRY BRIGADE
7. IC-48389W BRIGADIER SAHI HARJEET SINGH, SENA MEDAL/THE RAJPUT REGIMENT, 120
INFANTRY BRIGADE
8. IC-54541P COLONEL PARAMVIR SINGH JAMWAL, SHAURYA CHAKRA/THE MECHANISED
INFANTRY / 9TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
9. IC-56645P COLONEL NAVNEET CHAIL, SENA MEDAL/ARMY AVIATION CORPS / 204 ARMY
AVIATION SQUADRON (UTILITY HELICOPTER)
10. IC-57959H COLONEL RAJMEET SINGH, THE MAHAR REGIMENT/1ST BATTALION THE
RASHTRIYA RIFLES
11. IC-58166M COLONEL GAGANDEEP SINGH, BRIGADE OF THE GUARDS/21ST BATTALION THE
RASHTRIYA RIFLES
12. IC-58215K COLONEL RANJIT JHA, 21ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL
FORCES)
13. IC-59183Y COLONEL SUDHIR CHAMOLI, 5/5TH BATTALION THE GORKHA RIFLES
(FRONTIER FORCE)
14. IC-59265F COLONEL BALBIR SINGH, 2ND BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
15. REAR ADMIRAL BISWAJIT DASGUPTA, VISHISHT SEVA MEDAL (02782-Y)
16. CAPTAIN ALOK ANANDA, (04049-A)
17. INDER SINGH OJHA, MASTER CHIEF PETTY OFFICER II RC 1, 161550-K
18. SATYA RANJAN MANDAL, MASTER CHIEF PETTY OFFICER II ASWI (S), 174964-Y

19. KESHAR SINGH CHAUDHARY, PETTY OFFICER RC I, 139289 - T
20. WING COMMANDER BHUPENDER SINGH SEHRAWAT, VAYU SENA MEDAL (24203) FLYING (PILOT)

SURESH YADAV
OSD to the President

—————

No. 18-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “BAR TO VISHISHT SEVA MEDAL” to the under mentioned personnel for distinguished service of a high order :—

1. IC-38183L LIEUTENANT GENERAL GURMUKH SINGH, SENA MEDAL, VISHISHT SEVA MEDAL/CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
2. IC-39868W MAJOR GENERAL SUNIL SRIVASTAVA, VISHISHT SEVA MEDAL / REGIMENT OF ARTILLERY
3. IC-39865H MAJOR GENERAL MICHAEL MATHEWS, VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF ENGINEERS
4. IC-39076W MAJOR GENERAL PRAVEEN DIXIT, VISHISHT SEVA MEDAL / ARMoured CORPS
5. MR-03989M MAJOR GENERAL DEEPAK KALRA, VISHISHT SEVA MEDAL / ARMY MEDICAL CORPS
6. CAPTAIN(TS) RAVI BHUSHAN SRIVASTAVA, VISHISHT SEVA MEDAL (02900-R)

SURESH YADAV
OSD to the President

—————

No. 19-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Vishisht Seva Medal” to the under mentioned personnel for distinguished service of a high order :—

1. IC-35118A LIEUTENANT GENERAL SATISH PRABHAKAR NAWATHE / CORPS OF ENGINEERS
2. IC-37316K LIEUTENANT GENERAL PRADEEP SINGH MEHTA/ ARMoured CORPS
3. IC-37398X LIEUTENANT GENERAL RAJAN RAVINDRAN/ INFANTRY
4. DR-10358M LIEUTENANT GENERAL TAPAS KUMAR BANDYOPADHYAY / ARMY DENTAL CORPS
5. IC-35499M MAJOR GENERAL MADINENI RAMESH BABU /SENA MEDAL AND BAR / INFANTRY
6. IC-35563Y MAJOR GENERAL BHUPESH KUMAR JAIN/ INFANTRY
7. IC-35908P MAJOR GENERAL AJAY ANAND, SENA MEDAL/ CORPS OF ENGINEERS
8. IC-38097A MAJOR GENERAL AJAY KUMAR PANT/ ARMoured CORPS
9. IC-38408H MAJOR GENERAL VIVEK SEHGAL/INFANTRY
10. IC-38686W MAJOR GENERAL VINOD KUMAR/ARMY AIR DEFENCE
11. IC-38696A MAJOR GENERAL NARINDER PAL SINGH/ ARMoured CORPS
12. IC-38752N MAJOR GENERAL PHOOL KANWAR SIWACH/THE MECHANISED INFANTRY
13. IC-38928N MAJOR GENERAL ANIL PRAHLAD BAM, SENA MEDAL / REGIMENT OF ARTILLERY
14. IC-39101K MAJOR GENERAL MANOJ ARUN OKA/INFANTRY
15. IC-39135X MAJOR GENERAL RAHUL BHARDWAJ/INFANTRY
16. IC-39371Y MAJOR GENERAL KRISHNA ESWARAN/CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
17. IC-39380A MAJOR GENERAL PODALI SHANKAR RAJESHWAR/REGIMENT OF ARTILLERY
18. IC-39445H MAJOR GENERAL SUDARSHAN SHRIKANT HASABNIS/CORPS OF ENGINEERS

19. IC-39500N MAJOR GENERAL CHRISTOPHER EMANUEL FERNANDES, SENA MEDAL/INFANTRY
20. IC-39598M MAJOR GENERAL GOPALAKRISHNAN JAISHANKAR/INFANTRY
21. IC-39643N MAJOR GENERAL RAJIV EDWARDS / ARMoured CORPS
22. IC-39655H MAJOR GENERAL HEMANT JONEJA/INFANTRY
23. IC-39675W MAJOR GENERAL VIJAY SINGH, SENA MEDAL/INFANTRY
24. IC-39846X MAJOR GENERAL ASHISH RANJAN PRASAD/CORPS OF SIGNALS
25. IC-39874K MAJOR GENERAL TARANJIT SINGH/ARMoured CORPS
26. IC-39909P MAJOR GENERAL PS SANDHU/MECHANISED INFANTRY
27. IC-39940F MAJOR GENERAL JAGATBIR SINGH/ARMoured CORPS
28. IC-40295K MAJOR GENERAL ARUN KUMAR SAPRA/CORPS OF ENGINEERS
29. IC-40873N MAJOR GENERAL RAMACHANDRA NAGRAJ/CORPS OF SIGNALS
30. IC-42273K MAJOR GENERAL BASANT KUMAR REPSWAL/ARMY SERVICE CORPS
31. V-00358Y MAJOR GENERAL PARTAP SINGH NARWAL/ REMOUNT VETERINARY CORPS
32. MR-05622L MAJOR GENERAL RAKHI SINGH/ARMY MEDICAL CORPS
33. NR- 16382Y MAJOR GENERAL SUSHILA SHAHI/MILITARY NURSING SERVICES
34. IC 41461Y BRIGADIER YOGENDRA DIMRI/CORPS OF ENGINEERS
35. IC-41471H BRIGADIER SURENDAR KUMAR PRASHAR/BRIGADE OF THE GUARDS
36. IC-41495M BRIGADIER NAV K KHANDURI/ARMY AIR DEFENCE
37. IC-41521H BRIGADIER HARSHA GUPTA, YUDH SEVA MEDAL/THE SIKH LIGHT INFANTRY
38. IC-41858L BRIGADIER CODANDA POOVAIAH CARIAPPA, SENA MEDAL/THE RAJPUTANA RIFLES
39. IC-42356P BRIGADIER AJAY PAL/REGIMENT OF ARTILLERY
40. IC-42603X BRIGADIER PRITPAL SINGH BHATIA/ARMY AIR DEFENCE
41. IC-43307Y BRIGADIER N RAJKUMAR, SENA MEDAL/THE BIHAR REGIMENT
42. IC-43877P BRIGADIER RAJINDER DEWAN/THE SIKH REGIMENT
43. IC-44808L BRIGADIER SANDEEP BHARGAVA/REGIMENT OF ARTILLERY
44. IC-45555N BRIGADIER MONISH DATTA/THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
45. IC-45909L BRIGADIER VIJAY SINGH RAWAT/THE KUMAON REGIMENT
46. IC-47121M BRIGADIER ANMOL SOOD/THE RAJPUTANA RIFLES
47. IC-47261Y BRIGADIER AMARDEEP SINGH AUJLA/THE RAJPUTANA RIFLES
48. IC-48046A BRIGADIER RAJESH PUSHKAR/ARMoured CORPS
49. IC-48096L BRIGADIER RANJIT SINGH/THE MADRAS REGIMENT
50. IC-48118Y BRIGADIER PRAVEEN KUMAR AIRY/THE GRENADIERS
51. IC-41528M BRIGADIER HARINDER SINGH, YUDH SEVA MEDAL, SENA MEDAL/THE MARATHA LIGHT INFANTRY
52. MR-04899X BRIGADIER RAJIV MOHAN GUPTA/ARMY MEDICAL CORPS
53. MR-04969L BRIGADIER CHARANJEET SINGH AHLUWALIA/ ARMY MEDICAL CORPS
54. MR-06435Y BRIGADIER VELAMAKANNI SATYANARAYANA GURUNADH/ARMY MEDICAL CORPS
55. MR-05966K BRIGADIER RASHMI DATTA, ARMY MEDICAL CORPS

56. DR-10426P BRIGADIER VINEET SHARMA/ARMY DENTAL CORPS
57. IC-44693H COLONEL JASBIR SINGH KANWAR/THE ASSAM REGIMENT
58. IC-46453K COLONEL AJAI SHARMA/THE SIKH REGIMENT
59. IC-46474A COLONEL NAWAL KISHORE OHRI/JUDGE ADVOCATE GENERAL'S DEPARTMENT
60. IC-46705L COLONEL UDAY KUMAR YADAV, SHAURYA CHAKRA, SENA MEDAL/THE MARATHA LIGHT INFANTRY
61. IC-50881A COLONEL NAVEEN SINGH, VIR CHAKRA / THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
62. IC-53945L COLONEL PRAVEEN BHAL/THE SIKH REGIMENT
63. IC-54027L COLONEL PANKAJ KAUSHAL/REGIMENT OF ARTILLERY
64. IC-55944F COLONEL PRASHANT NAIR, SENA MEDAL/THE MADRAS REGIMENT
65. IC-56055W COLONEL RAJESHWAR SINGH BAZAD, SENA MEDAL AND BAR/THE RAJPUT REGIMENT
66. IC-57360P COLONEL SANJAY KANNOTH/THE GORKHA RIFLES
67. IC-57427H COLONEL VINEET AGRAWAL/CORPS OF ENGINEERS
68. IC-58224L COLONEL PRITHVIRAJ SINGH RAWAT/ THE GORKHA RIFLES
69. IC-58364X COLONEL VIKRAM SUDHIR THAKUR/THE GRENADIERS
70. IC-58464H COLONEL SUBIR SONDHI/THE GARHWAL RIFLES
71. MR-06311K COLONEL SUVEER BHARGAVA/ARMY MEDICAL CORPS
72. REAR ADMIRAL AMIT BOSE (50931-A)
73. COMMODORE HARINDER PAL SINGH (40989-F)
74. COMMODORE PARIYARATH SURESH (02554-B)
75. COMMODORE RAJESH PENDHARKAR (03130-N)
76. COMMODORE JYOTIN RAINA (03556-F)
77. COMMODORE RAKESH KUMAR DAHIYA (03179-Z)
78. COMMODORE RAVI MALHOTRA (03056-W)
79. SURGEON CAPTAIN VIVEK HANDE (75568-W)
80. CAPTAIN PANDA PRACHET SURENDRA PRASAD (03804-W)
81. CAPTAIN KORAK DE (51481-A)
82. CAPTAIN (TS) DALIP KUMAR SHARMA (03209-T)
83. COMMANDER VINOD PAL SINGH RAWAT (03617-W)
84. COMMANDER SANJEEV SAHNI (04640-W)
85. SURGEON COMMANDER TELKATWAR MOHAN RAMRAO (75746-Z)
86. HANUMAN DUBEY, MASTER CHIEF PETTY OFFICER I ASWI(WEAPONS), 149943-F
87. AIR COMMODORE MOTHAMPET SABARI GIREESA MENON (17035), ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
88. AIR COMMODORE PRANAY KUMAR HRIDAYESH SINHA (17118), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
89. AIR COMMODORE ANNADA KANTA MISRA (17201) ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
90. AIR COMMODORE SANJAY KUMAR (17637) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) (RETIRED)
91. AIR COMMODORE SHASHIKER CHOUDHARY (17645) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
92. AIR COMMODORE NARINDER TANEJA (18187) MEDICAL
93. AIR COMMODORE RANJAN KUMAR CHOUDHURY (18384) MEDICAL

94. GROUP CAPTAIN SANJAY SHUKLA (17379) ADMINISTRATION
95. GROUP CAPTAIN K ANANTHARAMAN (17882) ADMINISTRATION
96. GROUP CAPTAIN SUNIL MEDIRATTA (18893) ADMINISTRATION/ FIGHTER CONTROLLER
97. GROUP CAPTAIN AJAY KUMAR PAN (19377) LOGISTICS
98. GROUP CAPTAIN SIVARAMAN SREEKANTH (19479) ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
99. GROUP CAPTAIN LANKA VENKATA SAI RAMESH (19626), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
100. GROUP CAPTAIN SANJIV GHURATIA (19648) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
101. GROUP CAPTAIN HILAL AHMAD RATHER, VAYU SENA MEDAL (19863) FLYING (PILOT)
102. GROUP CAPTAIN R RAVISHANKAR (20152) FLYING (PILOT)
103. GROUP CAPTAIN BIJAN KUMAR PANDA (20349) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
104. GROUP CAPTAIN SATINDER SINGH REHAL (20862) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
105. GROUP CAPTAIN SAMEER MADHUKAR KALODE (20968), AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
106. GROUP CAPTAIN KRISHNASWAMY PREMKUMAR, VAYU SENA MEDAL (21241) FLYING (PILOT)
107. GROUP CAPTAIN SHAILESH RANJAN (21254) FLYING (PILOT)
108. GROUP CAPTAIN RAJESH JOSHI (21502) FLYING (PILOT)
109. GROUP CAPTAIN MALUK SINGH (21528) FLYING (PILOT)
110. GROUP CAPTAIN AJVEER SINGH MINHAS (22126) FLYING (PILOT)
111. GROUP CAPTAIN VAIBHAV DUTT BADONI (22738) FLYING (PILOT)
112. GROUP CAPTAIN ANAND SONDHI (22916) FLYING (PILOT)
113. WING COMMANDER ABHIJIT PRAKASH DESHPANDE (24218) FLYING (PILOT)
114. WING COMMANDER MUDIT MATHUR (24573) ADMINISTRATION
115. WING COMMANDER J ANGEL REUBEN (24808) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
116. GO-1446F ADGBR BINOD BIHARI LAL
117. GS-194941Y OEM MANDEEP SINGH

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 20-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Bar to Sena Medal/Army Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. IC-66544P MAJOR KRISHNA KANT BAJPAI, SENA MEDAL/THE RAJPUT REGIMENT, 12TH BATTALION THE ASSAM RIFLES

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 21-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional courage :—

1. IC-59497A LIEUTENANT COLONEL RADHAKRISHNAN MURALI/INTELLIGENCE CORPS/ 4 CISU

2. IC-61070P LIEUTENANT COLONEL BEJOY RAVEENDRAN/THE MECHANISED INFANTRY/1ST BATTALION THE ASSAM RIFLES
3. TA-42875X LIEUTENANT COLONEL KARANBIR SINGH NATT/ 160 INF BN TA (H&H)
4. IC-68705L MAJOR AJAY SINGH RAUTELA/3RD BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES
5. IC-69878P MAJOR SANDEEP SINGH PATHANIA/THE DOGRA REGIMENT/40th BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
6. IC-69995A MAJOR UDAY BHANOT/THE MAHAR REGIMENT/1ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
7. IC-70432M MAJOR VAIBHAV VISHESH/19TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
8. IC-70967A MAJOR AKASH ASHOK TAPADIA/26TH BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
9. IC-71185W MAJOR BIKESH CHAUHAN/CORPS OF SIGNAL/3RD BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
10. SS-43870L MAJOR LIENGOUSIEM K GANGTE/12TH BATTALION THE ASSAM REGIMENT
11. SS-44233F MAJOR N ANANDARAJ/CORPS OF ENGINEERS/27TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
12. IC-72249H CAPTAIN MANEET KUMAR PANT/12TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
13. IC-75410X CAPTAIN VIKRANT PAUL/THE ASSAM REGIMENT/ 42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
14. IC-75611W CAPTAIN RAHUL SOLANKI/CORPS OF SIGNAL/ 56TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
15. IC-76196M CAPTAIN MANEESH BORA/4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
16. IC-76448N CAPTAIN ASHISH CHHIKARA/5TH BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
17. IC-77704K CAPTAIN DEEPESH SINGH MEHRA/9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ATTACHED WITH 6TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
18. SS-43666M CAPTAIN VINEET PHOGAT/BRIGADE OF THE GUARDS, 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
19. IC-79570P CAPTAIN MAYANK SHUKLA/CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS/2ND BATTALION THE DOGRA REGIMENT
20. SS-45863N CAPTAIN ASHUTOSH RANA/11TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
21. MS-17463L CAPTAIN ASHWANI KUMAR/ARMY MEDICAL CORPS/3RD BATTALION THE LADAKH SCOUTS (POSTHUMOUS)
22. AR-302M SHRI RAJ KUMAR SHARMA/ASSISTANT COMMANDANT 27TH BATTALION THE ASSAM RIFLES
23. JC-460506W NAIB SUBEDAR LATE SANJAY MURLIDHAR/THE MARATHA LIGHT INFANTRY/56TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
24. 2994529Y HAVILDAR BABLI SINGH/5TH BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
25. 4188349L HAVILDAR DIWAN SINGH/3RD BATTALION THE KUMAON REGIMENT
26. 13622866M HAVILDAR DEEPAK THAPA CHHETRI/4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
27. 13623694P HAVILDAR SANTHOSH JOSEPH/4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
28. 4369767P LANCE HAVILDAR RHOROTH KATIRY/THE ASSAM REGIMENT/42ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

29. 4572469N LANCE HAVILDAR DHARMENDRA KUMAR/15TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
30. 4000012N NAIK SURENDER PAL/2ND BATTALION THE DOGRA REGIMENT
31. 4084250H NAIK SATYAPAL SINGH RAWAT/4TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
32. 5756932A NAIK MOHAN GURUNG/9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) ATTACHED WITH 6TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
33. 13626111M NAIK RACHPAL SINGH/12TH BATALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
34. 15203010L NAIK C H UMAMAHESWAR RAO/REGIMENT OF ARTILLERY/32ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
35. 15612737L NAIK SRI CHITRA SAIKIA/BRIGADE OF THE GUARDS/21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
36. 4002436H LANCE NAIK SANJAY MANKOTIA/19TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
37. 5048055W LANCE NAIK AASH KUMAR GURUNG/3RD BATTALION THE FIRST GORKHA RIFLES (POSTHUMOUS)
38. 15619062Y LANCE NAIK HARMESH SINGH/BRIGADE OF THE GUARDS / 21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
39. 16012692P LANCE NAIK NARESH SINGH RAJPUT/16TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
40. 3204692K SEPOY ANKUL/12TH BATTALION THE JAT REGIMENT
41. 3408197M SEPOY HARPREET SINGH/8TH BATTALION THE SIKH REGIMENT (POSTHUMOUS)
42. 4201029X SEPOY MAHENDAR SINGH SHAWANT/THE KUMAON REGIMENT/ 50TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
43. 4378804Y SEPOY KHIANGTE LALNUNCHHUANGA/THE ASSAM REGIMENT/ 35TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
44. 19002584A SEPOY JARMAL SINGH/8TH BATTALION THE SIKH REGIMENT
45. 15175529H GUNNER JAGESHWAR/REGIMENT OF ARTILLERY/ 29TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
46. 5852252X RIFLEMAN SHSHIR MALL/THE GORKHA RIFLES/32ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
47. G/5011948M RIFLEMAN VIJAY KUMAR/23RD BATTALION THE ASSAM RIFLES
48. 15623495N GUARDSMAN JAGDISH PRASAD/BRIGADE OF THE GUARDS/21ST BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 22-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal” to the under mentioned personnel for the act of exceptional courage :—

1. CDR SANJAY SHUKLA (03503-K), INS SHIKRA
2. CDR ASHOK KUMAR (83807-W), CCDT (MBI)
3. ANIL KUMAR, POA (ACMD),(122947-A), INS SHIKRA
4. THONGBAM PRAKASH SINGH, NAI (ACMD), (224869-T), INS SHIKRA

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 23-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to the under mentioned personnel for the act of exceptional courage :—

1. WING COMMADER RAJIV DOBHAL (24022) FLYING (PILOT)
2. WING COMMANDER NIRMAL KUMAR BAKSHI (24531) FLYING (PILOT)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 24-Pres/2016– The President is pleased to approve the award of the “ Bar to Sena Medal/Army Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. IC- 44038K BRIGADIER H DHARMARAJAN, SENA MEDAL/THE CORPS OF ENGINEERS/ HEADQUARTERS 22 INFANTRY BRIGADE
2. IC-57146M COLONEL ANIRUDH CHAUHAN, SENA MEDAL/20TH BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
3. IC-57379N COLONEL AAKASH KHAZANCHI, SENA MEDAL/THE SIKH REGIMENT/ 46TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 25-Pres/2016– The President is pleased to approve the award of the “Sena Medal/Army Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. IC-38280H MAJOR GENERAL INDUPURU NARAYANA, VISHISHT SEVA MEDAL / REGIMENT OF ARTILLERY
2. IC-38528F MAJOR GENERAL KAPIL KUMAR AGGARWAL, VISHISHT SEVA MEDAL/CORPS OF ELECTRONICS & MECHANICAL ENGINEERS
3. IC-39609N MAJOR GENERAL AJAY OHRI / INFANTRY
4. IC-41067N MAJOR GENERAL JAI SINGH NAIN/INFANTRY
5. IC-41456N MAJOR GENERAL RAKESH KUMAR ANAND, VISHISHT SEVA MEDAL/CORPS OF SIGNALS
6. IC-45200H MAJOR GENERAL RAJINDER KUMAR, VISHISHT SEVA MEDAL/JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
7. IC-41585N BRIGADIER KRISHNA KUMAR MAHADEVAN IYER/ ARMY AIR DEFENCE
8. IC-41860H BRIGADIER SHANTANU DAYAL, VISHISHT SEVA MEDAL/THE GARHWAL RIFLES
9. IC-41480K BRIGADIER BISHWAJEET GHOSH, VISHISHT SEVA MEDAL / CORPS OF ENGINEERS
10. IC-42400N BRIGADIER TUMUL VARMA, VISHISHT SEVA MEDAL /CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
11. IC-42404K BRIGADIER JAI SINGH / THE GRENADIERS
12. IC-47603F BRIGADIER VIRESH PRATAP SINGH KAUSHIK /THE KUMAON REGIMENT
13. IC-48067W BRIGADIER RASHIM BALI, VISHISHT SEVA MEDAL/THE SIKH LIGHT INFANTRY
14. IC-48502A BRIGADIER ANIL SINGH/CORPS OF ENGINEERS
15. V-00398A BRIGADIER ANIL KUMAR/REMOUNT VETERINARY CORPS
16. IC-41977F COLONEL DHARAMVEER SINGH SUHAG, VISHISHT SEVA MEDAL / 9TH BATTALION THE GORKHA RIFLES
17. IC-49449M COLONEL INDERJIT SINGH PANJRATH /ARMY AIR DEFENCE

18. IC-50491X COLONEL VINOD BAJIYA /THE RAJPUT REGIMENT
19. IC-50563W COLONEL JITENDRA BENIWAL /THE SIKH LIGHT INFANTRY
20. IC-50847A COLONEL A SRIDHAR /REGIMENT OF ARTILLERY
21. IC-52881Y COLONEL APINDER PAL SINGH /CORPS OF SIGNALS
22. IC-53047M COLONEL DIGVIJAY SINGH /THE SIKH REGIMENT
23. IC-54320H COLONEL KANWAR JITENDRA SINGH /ARMY SERVICE CORPS
24. IC-54357K COLONEL GAURAV JAIN /REGIMENT OF ARTILLERY
25. IC-54397L COLONEL RAGHUDEEP MINHAS/CORPS OF ENGINEERS
26. IC-56631P COLONEL SONENDER SINGH /CORPS OF ENGINEERS
27. IC-56784Y COLONEL TEJVIR SINGH /THE PUNJAB REGIMENT
28. IC-57234H COLONEL VIKRAMJEET SINGH VIRK/15TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
29. IC-57355K COLONEL ASHOK KUMAR THAKUR /THE RAJPUTANA RIFLES/18TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
30. IC-57421F COLONEL AJAY LONDHE/CORPS OF ENGINEERS
31. IC-57438P COLONEL GOVINDAN PRAVEEN/14TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES
32. IC-57860M COLONEL YOGESH KUMAR BISHT/THE PUNJAB REGIMENT/22ND BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
33. IC-57973P COLONEL SS KAMATNURKAR/THE ASSAM REGIMENT/1 ARUNACHAL SCOUTS
34. IC-58099M COLONEL DALWINDER SINGH ATWAL/CORPS OF ENGINEERS
35. IC-58180Y COLONEL GIRIDHAR DHONDIRAM KOLE/THE GARHWAL RIFLES / 14TH BATTALION THE RASHTRIYA RIFLES
36. IC-58782M COLONEL VIJAY SUDHAKAR BHAVE/13TH BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
37. MR-07768X LIEUTENANT COLONEL SANJEEV KUMAR /ARMY MEDICAL CORPS

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 26-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Nao Sena Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. REAR ADMIRAL CHANDRA SHEKHAR RAO (40922-B)
2. COMMODORE MAHESH SINGH (03146-Z)
3. COMMODORE LOGANATHAN SURESH SURIARAJ (50952-Z)
4. COMMODORE SANJAY SADHU (41288-K)
5. COMMODORE SUPROBHO K DE (02867-R)
6. CAPTAIN RAHUL SHANKAR (03956-R)
7. CAPTAIN SUMEET KAPOOR (04244-W)
8. BANSHI DHAR SAINI, CPO CDI, 179617-Y

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 27-Pres/2016—The President is pleased to approve the award of the “Vayu Sena Medal/Air Force Medal” to the under mentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty :—

1. GROUP CAPTAIN NIKHILESH GAUTAM (21210) FLYING (PILOT)
2. GROUP CAPTAIN SANDEEP KHAN (21581), FLYING (NAVIGATOR)
3. GROUP CAPTAIN KANWALJIT SINGH (23175), FLYING (PILOT)
4. GROUP CAPTAIN AMARDEEP SINGH PANNU (23178) FLYING (PILOT)
5. GROUP CAPTAIN AJAY PAL SINGH (23538) FLYING (PILOT)
6. GROUP CAPTAIN HRUSHIKESH JAGANNATH PAGE (23566) FLYING (PILOT)
7. GROUP CAPTAIN PUNEET VIG (23733) FLYING (PILOT)
8. GROUP CAPTAIN YESH PAL SINGH NEGI (23735) FLYING (PILOT)
9. GROUP CAPTAIN KULDEEP SINGH (23747) FLYING (PILOT)
10. GROUP CAPTAIN RAMAN GOEL (23757) FLYING (PILOT)
11. GROUP CAPTAIN JAYASHANKAR SREERAM (23980) FLYING (PILOT)
12. WING COMMANDER SANJAY CHOPRA (23786) FLYING (PILOT)
13. WING COMMANDER NIKHIL SHRIKANT PURANDARE (23792) FLYING (PILOT)
14. WING COMMANDER SURAJ SHANKAR (24037) FLYING (PILOT)
15. WING COMMANDER DEVAM VATS (25631) FLYING (PILOT)
16. WING COMMANDER SHIV SHANKARAM (26561) FLYING (PILOT)

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 28-Pres/2016—The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the under mentioned officers/personnel for “Mention in Despatches” received by the Raksha Mantri from the “Chief of the Army Staff” :—

OPERATION MEGHDOOT

1. IC-63434P MAJ BINIT KUMAR, 28 PUNJAB
2. SC-00820M LT RAJESH KUMAR, 20 RAJ RIF
3. 3409182W SEP GURPREET SINGH, 19 SIKH

OPERATION RAKSHAK

1. IC-68044W MAJ KOBITIRTHA SANYAL, MAHAR, 1 RR
2. SS-43354W MAJ PRASANTH R PILLAI, 18 JAT
3. IC-77050L CAPT ABHISHEK REPSWAL, 66 ENGR REGT
4. 4188588A NK RAJENDRA SINGH, KUMAON, 50 RR
5. 9108495P NK JAVID AHMAD CHOPAN, 9 PARA (SF) ATTACHED WITH 6 RR
6. 5048604L L/NK NIRMAL DARLAMI, 3/1 GR
7. 16114958K SPR PETCHIMUTHU S, ENGRS, 1 RR
8. 9108782Y RFN NASEER AHMED KHAN, JAK LI, 56 RR
9. 15181007H GUNNER RAVI KUMAR PATEL, ARTY, 56 RR

OPERATION RHINO

1. IC-75865N CAPT PRADIP SHUKLA, 11 GARH RIF
2. 2999936L NK GOPENDRA SINGH, 2 RAJPUT

SURESH YADAV
OSD to the President

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 73, Dated 9th March 2016—The President is pleased to make the following Appointment :-

Sh. Arun Kumar Yadav to be Sr.Admin Officer - I, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 31.07.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 6600/- .

Sh. Kundan Singh to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 08.01.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Khelaram Marndi to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01.10.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Theegyela Srinivas to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 29.06.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

Sh. Ashish Nijhawan to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 13.07.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300 – 34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/-.

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)

—————
DGNCC / MS(D)

No. 74, dated 9th March 2016—The President is pleased to grant honorary rank of Maj / Lt Cdr / Sub Lt in the NCC to the following Ex-Associate NCC Officers, from the dates mentioned against their names:-

NCC No., Rank, Name, and Dte	Honorary Rank awarded	Date from which awarded
NCCJN/124098 Chief Officer A Kamatchi NCC Dte, T&N	Sub Lt	14-04-2015
NCCN/24058 Lt Cdr TI Joe NCC Dte, K&L	Lt Cdr	03-03-2014
NCC/28038 Major I Babu Rathinam NCC Dte, TN,P&A	Major	28-07-2013

DM GUPTA
Brig
Dy Dir Gen (MS)

—————
ARMY BRANCH

No. 75, dated 10th March 2016—The President is pleased to make the following promotion: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Srug Cmde (& equiv) to be Surg R Adm (& equiv)

R Kalra, NM, VSM (MR-04564A)(75281-T)	-	01-10-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-15.
--	---	--

WG CDR TO GP CAPT (TIME SCALE)

MR-07661H (AF-22480-N)	WG CDR	P JAIN	30 JUN 2015
------------------------	--------	--------	-------------

SURG CDR TO SURG CAPT (TIME SCALE)

MR-06719H (75502-W)	SURG CDR	ZA SHAMEEM	16 AUG 2015
MR-06223N (75493-Z)	SURG CDR	S CHAUDHARY	12 DEC 2015
MR-06278X (75546-W)	SURG CDR	AK SINHA	12 DEC 2015
MR-07196F (75492-Y)	SURG CDR	GEETA SINHA	12 DEC 2015
MR-06593N (75558Y)	SURG CDR	CN CHAUDHARI	06 JUL 2015
MR-07689H (75565N)	SURG CDR	NAVNEET NATH	23 SEP 2015

RK RANYAL
Air Cmde
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 76, Dated 10th March 2016—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

PERS NO	NAME	ARM / SERVICE	SUBS COL
TA-42385	HRS Rana	TA(Non- Deptt)	01-05-2014
TA-42088	Vinay Handa	TA(Non- Deptt)	26-06-2014
TA-42097	BS Nagial	TA(Non- Deptt)	26-06-2014
TA-42521	KS Jaggi	TA(Non- Deptt)	26-06-2014

NAVIN KUMAR
Dy Director
MS-8 A

ARMY BRANCH

No. 77, dated 11th March 2016—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

TO BE NAIB SUBEDAR

Hav	Parmendra Singh	13694758Y	now	JC-405369H	20 May 15*
-----	-----------------	-----------	-----	------------	------------

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 May 2015).

Hav	Man Singh	13694784A	now	JC-405375W	01 Jun 15
Hav	Sanjay Kumar	13694866H	now	JC-405376Y	01 Jun 15
Hav	Veerender Singh	13693590L	now	JC-405374N	01 Jun 15
Hav	Anand Kumar Bajpai	13693594F	now	JC-405387L	01 Jul 15

Hav	Mohan Lal Haritwal	13694522K	now	JC-405372H	01 Jun 15
Hav	Pramod Kumar	13695881K	now	JC-405337A	17 Mar 15*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 05 Mar 2015).					
Hav	Rajendra Prasad	13693776P	now	JC-405332F	23 Mar 15*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2015).					
Hav	Isvar Pal Maurya	13695184K	now	JC-405380F	01 Jun 15
Hav	Rajendra Singh Bisht	13695919H	now	JC-405373L	01 Jun 15
Hav	Magan Behari Shukla	13695197F	now	JC-405408W	04 Jul 15*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Pritam Singh	13692553L	now	JC-405392W	01 Jul 2015
Hav	Lakshman Singh	13693272F	now	JC-405393Y	01 Jul 2015
Hav	Bhaskara Nand	13693273K	now	JC-405394F	01 Jul 2015
Hav	Damor Dilip Kumar Balu Sing	13696844H	now	JC-405421A	20 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 28 May 2015).					
Hav	Thakur Karan Singh Kushwaha	13696970P	now	JC-405420X	01 Jul 2015
Hav	Keshob Gogoi	13692545M	now	JC-405384X	01 Jul 2015
Hav	Hitlar Das	13692586W	now	JC-405400K	10 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Rajesh Pradhan	13692649N	now	JC-405385A	01 Jul 2015
Hav	Romen Babu Singha	13695728N	now	JC-405404A	01 Jul 2015
Hav	Jagdish Kumar	13695776N	now	JC-405405H	01 Jul 2015
Hav	Byas Muni Yadava	13693038L	now	JC-405417X	01 Jul 2015
Hav	Yerni Srinivasa Rao	13693357X	now	JC-405418A	01 Jul 2015
Hav	Surinder Singh	13694116K	now	JC-405361W	20 May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2015).					
Hav	Daya Ram	15616337W	now	JC-405363F	20 May 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2015).					
Hav	Shishpal	13695111X	now	JC-405389W	01 Jul 2015
Hav	Surinder Singh	13695157A	now	JC-405390L	01 Jul 2015
Hav	Kaman Singh Rana	13695243L	now	JC-405391N	01 Jul 2015
Hav	Ramesh Kumar	15611787K	now	JC-405431K	01 Aug 2015
Hav	Virender Kumar	13696527F	now	JC-405396M	01 Jul 2015
Hav	Saravanan K	13696807P	now	JC-405397P	03 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Dalip Singh	13693461L	now	JC-405379M	01 Jun 2015

Hav	Sanjay Kumar	13693696X	now	JC-405406L	13 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Raman Deep	13693733A	now	JC-405409Y	01 Jul 2015
Hav	Siya Ram Gurjar	13693777X	now	JC-405410N	02 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Ravindra Nath Yadav	13695491F	now	JC-405366P	01 Jun 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 02 Apr 2015).					
Hav	Jadhav Shivaji Kumar Laxman	13697305Y	now	JC-405367X	01 Jun 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 02 Apr 2015).					
Hav	R Alagar Raj	13697337F	now	JC-405377F	01 Jun 2015
Hav	Md Anwarul Haque	13695925W	now	JC-405402P	01 Jul 2015
Hav	Choudhari Chandrakishor Ramjiwan	13693525L	now	JC-405362Y	30 Apr 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2015).					
Hav	Chander Ram Arya	13692693X	now	JC-405386H	01 Jul 2015
Hav	Pabitra Buragohain	13692906A	now	JC-405414K	15 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Lokesh Kumar	13693839M	now	JC-405388N	01 Jul 2015
Hav	Awadesh Kumar Singh	13694414H	now	JC-405416P	01 Jul 2015
Hav	Bali Ram	13694706H	now	JC-405415M	01 Jul 2015
Hav	Bankesh Nath Tiwari	13693563F	now	JC-405398X	13 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jun 2015).					
Hav	Kamana Pal	13694007X	now	JC-405407N	13 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Kedar Nath Mishra	13694149P	now	JC-405419H	16 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Santosh Tiwari	13694251X	now	JC-405395K	01 Jul 2015
Hav	Pyare Lal	13693211K	now	JC-405401M	01 Jul 2015
Hav	Dharam Vir Singh	13694588A	now	JC-405403X	03 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Abdul Khaliq	13694000N	now	JC-405423L	23 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Rajesh George P	13694470Y	now	JC-405424N	25 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Patil Tatoba	13694486K	now	JC-405425W	25 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Anil Rana	13693835W	now	JC-405427F	01 Aug 2015
Hav	Balbir Singh	13693886K	now	JC-405447P	01 Sep 2015
Hav	Anbazhagan P	13693441X	now	JC-405432M	01 Aug 2015
Hav	Rajesh Kumar	13693530W	now	JC-405430F	01 Aug 2015

Hav	Surender Singh	13693639W	now	JC-405444F	01 Sep 2015
Hav	Akshay Kumar Singh	13693646M	now	JC-405445K	01 Sep 2015
Hav	Karam Vir	13693700P	now	JC-405446M	01 Sep 2015
Hav	Umesh Kumar	13695398A	now	JC-405426Y	04 Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 17 Dec 2014).					
Hav	Bishmber Dayal	13695348P	now	JC-405443Y	01 Sep 2015
Hav	Govind Singh	13692909N	now	JC-405429M	17 Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Aug 2015).					
Hav	Anil Yadav	13694003F	now	JC-405428K	14 Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 21 Jul 2015).					
Hav	Kuldeep Singh	13693320W	now	JC-405434X	24 Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav	Mahipal	13695118F	now	JC-405438N	31 Aug 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 10 Aug 2015).					
Hav	Omkar	13694228K	now	JC-405436H	12 Sep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 04 Aug 2015).					
Hav	Rajendra Singh	13694525X	now	JC-405437L	17 Sep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 07 Aug 2015).					
Hav	Devender Singh	13694635M	now	JC-405442W	17 Sep 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Sep 2015).					
Hav	Chander Mohan	13693728P	now	JC-405448X	01 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 05 Sep 2015).					
Hav	Narender Kumar	13693926N	now	JC-405455N	01 Nov 2015
Hav	Surinder Kumar	13695397X	now	JC-405439W	06 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 22 Aug 2015).					
Hav	Ranjeet Singh	13695727L	now	JC-405440L	06 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 22 Aug 2015).					
Hav	Rajendr Singh Gurjar	13695989F	now	JC-405441N	06 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 22 Aug 2015).					
Hav	Saju Kumar S	13694521F	now	JC-405454L	02 Nov 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2015).					
Hav	Virender Singh	13695239H	now	JC-405449A	12 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 20 Sep 2015).					
Hav	Kamal Kishor	13693535P	now	JC-405450P	19 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 25 Sep 2015).					
Hav	Raj Kumar	13693550K	now	JC-405453H	10 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2015).					

Hav	Mohd Siraj	13693625W	now	JC-405435A	01 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Aug 2015).					
Hav	Dhananjay Kumar Ojha	13694353N	now	JC-405451X	14 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2015).					
Hav	Anusuiya Prasad	13694547W	now	JC-405452A	20 Oct 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Oct 2015).					
To be Naib Subedar (Clerk SD)					
Hav(ClkSD)	Rajeev Kumar	13696474N	now	JC-405353X	01 May 2015
Hav(ClkSD)	Patil Deepak Tukaram	13696754F	now	JC-405378K	20 Jun 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jun 2015).					
Hav(ClkSD)	Ram Chandra	13696806M	now	JC-405422H	01 Jul 2015
Hav(ClkSD)	Hole Kishor Ramchandra	13696824P	now	JC-405413F	06 Jul 2015*
*(Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jul 2015).					
Hav(ClkSD)	Manoj Kumar	13696830H	now	JC-405382M	01 Jul 2015
Hav(ClkSD)	Shaik Ali Ahmed S	13696851Y	now	JC-405399A	01 Jul 2015
Hav(ClkSD)	Kedar Mishra	13696900W	now	JC-405383P	01 Jul 2015
Hav(ClkSD)	Santosh Kumar Shukla	13695719M	now	JC-405433P	01 Sep 2015
To be Naib Subedar (SKT)					
Hav(SKT)	Satyabhan Singh	13693265I	now	JC-405370X	01 Jun 2015
Hav(SKT)	Bhagat Jeevan Bhonaji	13695479A	now	JC-405381K	01 Jul 2015

RAJEEV JAUHARI
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 78, Dated 11th March 2016—The President is pleased to make the following promotion :-

Smt. Geetha Rani BS to be Private Secretary, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 31.12.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/- .

Sh. MVL Narasimha Rao to be Sr.Private Secretary, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 16.12.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4800/- .

Smt. MR Kathiyayini to be Sr.Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 12.01.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Smt. MB Cecilia to be Sr.Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 12.01.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. Suresh P Kamble to be Sr.Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 12.01.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Sh. S Rama Krishna to be Sr.Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 12.01.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Smt. V Vanmathy to be Sr.Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 12.01.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Smt. Usha Suresh to be Asstt. Director (OL), Gp 'A' (Gazetted) in DRDO with effect from 01.09.2015 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Smt. Anita Sethi to be Sr.Private Secretary, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 18.12.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4800/- .

Smt. H Sathyavathi to be Private Secretary, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 23.11.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4600/- .

Sh. Ch. Vijaya Kumar to be Sr.Admin Officer - II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for One year in DRDO with effect from 12.01.2016 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 (PB3) and Grade Pay Rs. 5400/- .

Smt. Nisha Manoharan to be Sr.Private Secretary, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 31.12.2015 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4800/- .

Smt. G S Ratna Kumari to be Sr.Private Secretary, Gp 'B' (Gazetted) in DRDO with effect from 04.01.2016 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 (PB2) and Grade Pay Rs. 4800/- .

The President is pleased to make the following promotions to the under mentioned individuals for the Post and Date shown against their names:-

Name	Post of promotion	Estt/Lab	Date of joining	Pay band and grade pay
Sh. Dilip Kumar Gandhi	AO	DL, Jodhpur	01.01.15	PB-2, GP-4600
Sh. Mohan Chandra	PS	IRDE, Dehradun	01.07.15	PB-2, GP-4600
Sh. Ramakrishna MB	PS	CAIR, Bangalore	24.09.15	PB-2, GP-4600
Smt. A Sarala	AO	CAIR, Bangalore	01.10.15	PB-2, GP-4600
Sh. SY Damse	AO	R&DE(E), Pune	21.10.15	PB-2, GP-4600
Sh. B Hanumantharayappa	Security Officer	GTRE, Bangalore	30.10.15	PB-2, GP-4600
Sh. Pranay Kumar Das	AcO	PXE, Balasore	16.11.15	PB-2, GP-4600
Sh. Bhadra Soran	Sec. Officer	PXE, Balasore	26.11.15	PB-2, GP-4600
Ms K Padmavathi Devi	SPS	DLRL, Hyderabad	17.12.15	PB-2, GP-4800
Smt Shobha Sharma	PS	CCR&D(TM),N.D.`	21.12.15	PB-2, GP-4600
Sh. Bharat Malik	PS	DL, Jodhpur	21.12.15	PB-2, GP-4600
Sh. MB Narasimha Raju	Security Officer	LRDE, Bangalore	01.01.16	PB-2, GP-4600
Smt. Shobana MR	PS	LRDE, Bangalore	01.01.16	PB-2, GP-4600
Sh. Prakash G	PS	LRDE, Bangalore	01.01.16	PB-2, GP-4600
Sh. P Vijay Kumar	PS	DMRL,Hyderabad	01.01.16	PB-2, GP-4600

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in